

एनआईए के महानिदेशक (डीजी) सदानंद दाते श्रीनगर से दिल्ली लौट सकते हैं और पहचानाम आतंकी हमले पर प्रारंभिक रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपेंगे. इस हमले को लेकर केंद्र सरकार बेदेह गंभीर है और जहाँ पुलिसियाँ को तैयारी पहलुओं की गहन जड़ताल के निर्देश दिए गए हैं। एनआईए और जम्मू-कश्मीर पुलिस ने अब तक 90 अजीबख्खू के खिलाफ यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया है, सौ जगहों पर रेड मारी गार्डन करीब 3,000 संदिग्धों से पूछताछ की गई है। इसकी प्रतीति धीरे-धीरे खुल रही है।

पेयजल योजनाओं के कार्यों को गुणवत्ता के साथ समय पर कराएं : जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री



जागरूक टाइम्स संवाददाता
अलवर। जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं भूजल विभाग मंत्री कन्हैयालाल चौधरी की अध्यक्षता में शनिवार को मिनी सचिवालय स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में जलदाय विभाग के अधिकारियों के साथ अलवर एवं खैरथल-तिजावा जिले की पेयजल व्यवस्था की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। इस दौरान पर्यावरण एवं वन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संजय शर्मा उपस्थित रहे। जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री चौधरी ने अलवर जिले की पेयजल व्यवस्था तथा परियोजनाओं व कार्यों की समीक्षा करते हुए विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि इनकी क्रियान्विति निर्धारित मापदंड के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता के साथ तय समय में करवाना सुनिश्चित करें। साथ ही पेयजल संबंधी कार्यों की अधिकारी प्रो-एक्टिव रहकर कार्य के प्रारंभ से अंत तक नियमित एवं प्रभावी मॉनिटरिंग करें। उन्होंने ग्रीष्म ऋतु में विभिन्न मंदों में स्वीकृत हैंडपम्प और ट्यूबवेल के कार्य त्वरित गति से कराते हुए यथाशीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने बजट घोषणा के तहत सिलीसेट झील से शहर को पानी पहुंचाने की लगभग साढ़े 23 करोड़ राशि की योजना एवं 25 करोड़ की राशि से शहर की कॉलोनियों में जल प्रदाय की योजना को

यथाशीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिले में स्थित प्राचीन जल स्रोतों को चिन्हित कर उनका जीर्णोद्धार कराने के प्रस्ताव तैयार कर भिजवाए, जिससे जल संरक्षण के साथ-साथ वर्षा जल को एकत्रित कर भूजल रिचार्ज हो सके। उन्होंने निर्देश दिए की भूजल स्तर सुधारने के लिए विभागीय कार्यों में जल संरक्षण संरचना निर्माण जैसे एनीकट इत्यादि के प्रस्ताव भी सम्मिलित हो, ताकि विभाग के ट्यूबवेल व हैंडपंप सूखे नहीं उमनें जल रिचार्ज होता रहे। जलदाय मंत्री चौधरी ने जल जीवन मिशन योजना की समीक्षा कर अधिकारियों को निर्देश दिये कि जल जीवन मिशन के कार्य गुणवत्तापूर्ण व समयबद्ध रूप से करवाना सुनिश्चित करें। राज्य सरकार के स्तर के बिन्दुओं से अविलम्ब अवगत कराया जाए ताकि उनका यथाशीघ्र निराकरण कर कार्यों को मूर्त रूप दिया जा सके।

उन्होंने स्थानीय जनप्रतिनिधियों से कहा कि पेयजल योजनाओं के कार्यों का मौका निरीक्षण करें। इसमें आने वाली बाधाओं को स्थानीय प्रशासन व आमजन में सामंजस्य स्थापित कराकर योजनाओं को यथाशीघ्र अमलीजामा पहनाने में सहयोग प्रदान करें। कार्यों में लापरवाही व उदासीनता बरतने वाले अधिकारियों व

कर्मचारियों के बारे में अवगत करावे, उनके विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने निर्देशित किया कि जिले में पेयजल आपूर्ति के लिए दीर्घकालिक उपायों पर कार्य करने के साथ-साथ गर्मी के मौसम में अल्पकालिक उपायों के तहत स्वीकृत ट्यूबवेल एवं हैंडपंप को चालू कराए तथा पेयजल प्रभावित क्षेत्रों में टैंकर से जल आपूर्ति की पर्याप्त व्यवस्था के साथ प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देश दिए की बैठक में जनप्रतिनिधियों द्वारा पेयजल संबंधित अवगत कराए गए कार्यों के प्रस्ताव तैयार कर विभाग को यथाशीघ्र भिजवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने जल जीवन मिशन के तहत पूर्ण कार्यों में क्षतिग्रस्त हुई सड़कों को दुरुस्त करवाने के निर्देश दिये। मंत्रीचौधरी ने अलवर-भरतपुर चंबल परियोजना की विस्तृत समीक्षा करते हुए परियोजना अधिकारी से डीपीआर निर्माण से लेकर टेंडर प्रक्रिया पूर्ण करने तक की कार्रवाई की वस्तु स्थिति जानकर प्रभावी मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए ताकि परियोजना से तय समय में आमजन को लाभान्वित करवाया जा सके। वन राज्यमंत्री संजय शर्मा ने राज्य सरकार द्वारा पेश किए गए बजट में अलवर की पेयजल समस्या के समाधान हेतु विभिन्न घोषणाओं को समयबद्ध रूप में धरातल पर क्रियान्वित कराने, शहर में संचालित 150 एमएम ट्यूबवेल मरम्मत के लिए उपकरण उपलब्ध कराने, लड्डू खास की बगीची में तालाब निर्माण कार्य व जल संरक्षण हेतु भूरा सिद्ध मंदिर के आसपास के क्षेत्र के जल को संरक्षित करने के लिए एनीकट बनाने के लिए जलदाय मंत्री को अवगत कराया।

सेवा, संवेदना और समर्पण से मनाया गहलोत का जन्मदिवस



चूरू। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जन्मदिवस के पावन अवसर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा सेवा और करुणा के विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम की शुरुआत महात्मा ज्योतिबा फुले जी की प्रतिमा पर मान्यार्पण से हुई। उनके सामाजिक न्याय, शिक्षा और समानता के सिद्धांतों को नमन करते हुए कार्यकर्ताओं ने उनके पदचिह्नों पर चलने का संकल्प लिया। इसके पश्चात आपणी पाठशाला में झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले निर्धन बच्चों को भोजन परोसा गया। बच्चों के चेहरों पर मुस्कान और आंखों में चमक, इस आयोजन की सबसे बड़ी सफलता रही। कार्यक्रमों की रूपरेखा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं विधानसभा से प्रत्याशी रफीक मंडेलिया के मार्गदर्शन में तय की गई, जिन्होंने कार्यकर्ताओं से जनसेवा को सर्वोच्च धर्म मानने का आह्वान किया। इस अवसर पर प्रमुख रूप से चूरू निवर्तमान सभापति पायल सैनी, शहर ब्लॉक अध्यक्ष असलम खोखर, देहात ब्लॉक अध्यक्ष किशोर धाँदू, ओबीसी प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष नारायण बालान, डूंगरमल सैनी, लाल चंद सैनी, बनवारी बालान, विनोद खटिक, इस्माइल भाटी, अनिल बालान, रामचन्द्र सुंडा, घनश्याम अलवरिया, अनीश खान, तौफोक खान, आबिद जाबसरिया, युनुस खान, शकुंर शेख, दिमल शर्मा, असलम मोयल, शमी उल्लाह, बाबू मंत्री, बाली बाई, जाफर खान, बजरंग बजाड़, गोपाल शर्मा, हेमंत सैनी, संजय भाटी, शाहिद खान, सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसजन उपस्थित रहे। सेवा, समर्पण और सामाजिक न्याय के मूल्यों पर चलना ही अशोक गहलोत की सच्ची प्रेरणा है।

खेल को खेल भावना से खेलें : सुनील कुमार



जागरूक टाइम्स संवाददाता
चूरू। ढाँघण में द्वितिय राज. बटालियन एनसीसी के द्वितिय वार्षिक प्रशिक्षण शिविर में खेलकुद प्रतियोगिता में बॉलीबाल, रस्साकस्सी, खो -खो व पीटी झील आदि प्रतियोगिताओं में कैडेट्सों ने भाग लिया। इस अवसर पर खेलकुद प्रतियोगिता में कैम्प कमांडेंट ले कर्नल सुनील कुमार ने कहा कि कैडेट्स खेल को खेल की भावना से खेलें। खेल में हार जीत का महत्व न समझकर खिलाड़ी सिर्फ अपने खेल पर ध्यान देवे। जिससे खिलाड़ी के खेल में निखार आता है। खेल में

भाग लेने से स्वास्थ्य व शारीरिक क्षमता में बढ़ोतरी होती है। इस अवसर पर सुबेदार मेजर प्रेम तर्माण ने कैडेट्स को अपनी दक्षता व मनोबल से श्रेष्ठ कार्य करने की सीख दी। कैप में जयपुर, सीकर आदि जिलों के कैडेट्स प्रशिक्षण ले रहे हैं। कैम्प में लेफ्टिनेंट अरूण कुमार, लेफ्टिनेंट बीएल मेहरा, लेफ्टिनेंट अंजु कुमारी, केयर टेकर कृष्ण कुमार, राजेन्द्र कस्वा, सुबेदार रणधीर सिंह, सुबेदार मोहन, संजीव कुमार, हवलदार जाहिद हुसैन, हवलदार ओमप्रकाश व सहायक प्रशासनिक अधिकारी शांतिलाल रक्षक मुस्ताक आदि मौजूद रहे।

शिक्षा से ही वंचित समाज को आगे लाया जा सकता है : भाटी

जागरूक टाइम्स संवाददाता
सादुलपुर। राखगढ़ उपखंड क्षेत्र में शनिवार को सर एक्सीलेन्ट स्कूल इंग्लिश मीडियम सिद्धमुख का उद्घाटन समारोह में पधारे मुख्यातिथि के रूप में रहीम दास महाराज एवं आशीष शर्मा विप्र फाउंडेशन के अध्यक्ष प्रमुख समाजसेवी आशीष शर्मा,शिक्षाविद् अनुपालसिंह भाटी एपीएस स्कूल के डायरेक्टर भाटी ने कहा वंचित समाज को शिक्षा से आगे लाया जा सकता है इस मौके पर पधारे अन्य विशिष्ट अतिथि, एडवोकेट हरदीप सुंदरिया, ओमप्रकाश किरोड़ीवाल ब लबीर जागिड़, कृष्ण कस्वा एपीएम सर तारानगर से, बाबूलाल राजपुरोहित विनोद रतिवाल महेंद्र कामड महावीर जांगिड़ महेंद्र सहारण, सिधमुख तहसीलदार कालूराम ने

इस मौके पर बच्चों ने बहुत सुंदर देशभक्ति गायन कर नृत्य किया संस्था के अध्यक्ष सुनील ढाका संस्था के प्रधानाध्यापक सुरेन्द्र कुमार रेजड़ी ने आए हुए सभी अतिथियों का माला दुपट्टा मोमेंटों देकर स्वागत किया। हरियाणा की लोक कलाकार रजनी जांगिड़, राजू शर्मा एंड पार्टी ने देशभक्ति भजन रागनी सुनाकर सब को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम में आए अतिथियों ने कहा कि आज शिक्षा से ही देश की राष्ट्र की उन्नति हो सकती है। शिक्षा से अच्छे संस्कार मिलेंगे और एक सुन्दर समाज होगा। कार्यक्रम का समापन की घोषणा शिक्षाविद् मोहरसिंह शिला ने अपना अनुभव बच्चों से साझा किया मंच संचालन अनुपालसिंह भाटी ने किया।

दवा दुकानदारों द्वारा अनियमितता बरतने पर नौ दवा दुकानों के लाइसेंस निलम्बित

जागरूक टाइम्स संवाददाता
धौलपुर। जिले में दवा दुकानदारों द्वारा अनियमितता बरतने पर सहायक औषधि नियंत्रक, भरतपुर द्वारा 9 दवा दुकानों लाइसेंस निलंबित किए गए हैं। इन दुकानदारों द्वारा निरीक्षण पुस्तिका संभारित न करना, फार्मासिस्ट अथवा योग्य व्यक्ति का दुकान से अनुपस्थित रहना, नियमानुसार शेड्यूल 14-1 एवं एनडीपैपर्स दवाओं का विक्रय रिकॉर्ड सही से ना रखना आदि अनियमितता शामिल हैं। औषधि नियंत्रण अधिकारी अनुभव शर्मा ने बताया कि जिला कलक्टर श्रीनिधि बी टी के निर्देश पर दवा दुकानों का औचक निरीक्षण किया जा रहा है। जिनकी रिपोर्ट भी आवश्यक कार्यवाही हेतु सहायक औषधि नियंत्रक भरतपुर को प्रस्तुत की जा रही है। इसी क्रम में दुकानों पर अनियमितता पाये जाने पर सहायक औषधि नियंत्रक भरतपुर द्वारा दुकानों के लाइसेंस को निलम्बित किया गया है। डीसीओ शर्मा ने बताया कि वीरेन्द्र मेडीकल एण्ड जनरल स्टोर बाड़ी रोड बसेडी,15 दिन के लिए, शिव मेडीकल स्टोर बसेडी रोड सैपक 10 दिन, हर्षिता मेडीकल स्टोर गुरुद्वारा रोड धौलपुर 07 दिन, श्री श्याम मेडीकल स्टोर अग्रवाल कोलोनी

समथुरा 12 दिन, एस.आर. मेडीकल स्टोर राजाखेडा 05 दिन, ओशो मेडीकल स्टोर बसेडी 15 दिन भावना मेडीकल स्टोर धौलपुर 3 दिन, परमार फार्मा एण्ड जनरल स्टोर सैपक 05 दिन, महावीर जी फार्मा एण्ड जनरल स्टोर सैपक 05 दिन लिए लाइसेंस निलंबित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि इस अवधि के दौरान निलंबित दुकानदार अपनी दुकान पर कोई व्यवसाय नहीं कर सकते, व्यवसाय करते हुए पाये जाने पर दुकान का लाईसेंस निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी। साथ ही औषधि नियंत्रण अधिकारी धौलपुर द्वारा रोटेशन के आधार पर जिले में एक दो दवा दुकानों को इमरजेंसी में जिला अस्पताल के पास खुली रखने के निर्देश जिला केमिस्ट ऐसोसिएशन को दिये हैं। रात्रि में खुलने वाली दुकानों के नंबर अस्पताल प्रशासन को उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि दवा विक्रेताओं की रैण्डम चैकिंग प्रतिमाह की जाती है एवं अनियमितता की रिपोर्ट कार्यवाही हेतु सहायक औषधि नियंत्रक को भेजी जाती है। भविष्य में भी एनडीपीएस दवा एवं एस सी एच-1-C दवाओं के दुरुपयोग करने वाले दुकानदारों के विरूद्ध कार्यवाही जारी रहेगी।

सुगम व्यापार सुनिश्चित करने उद्योगों के समस्या निवारण हेतु अनुकूल समन्वय करें सभी विभाग : जिला कलेक्टर

जागरूक टाइम्स संवाददाता
धौलपुर। उद्यमियों को सुगम व्यापार का माहौल सुनिश्चित करने एवं विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु जिला कलक्टर श्रीनिधि बी टी की अध्यक्षता में शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में विवाद एवं शिकायत निवारण तंत्र, एकल खिडकी जिला सशक्त समिति एवं जिला निर्यात संवर्द्धन समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला कलक्टर ने कहा कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार जिले में नीतिगत प्रोत्साहनों पर उद्यमियों को सुगम माहौल सुनिश्चित किया जाये। उन्होंने कहा कि उद्योगों की वृद्धि को सुनिश्चित करने हेतु विभिन्न विभागों द्वारा निर्धारित समयवधि में अनापत्ति प्रमाण पत्र/अनुमोदन/अनुदानों का निस्तारण सुनिश्चित किया जाये। उद्यमियों को सुगमता प्रदान करने हेतु सभी सम्बंधित विभाग आपस में समन्वय करते हुए समस्याओं का समय पर समाधान सुनिश्चित करें। जिले में निवेशकों को आने वाली समस्या के समाधान हेतु विवाद एवं शिकायत



निवारण तंत्र समिति में जिला कलक्टर ने जेवीवीएनएल को निर्देश प्रदान किये कि निवेशकों को समयबद्ध तरीके से नये कनेक्शन प्रदान किये जाये। उन्होंने रीको, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर परिषद एवं संबंधित सभी विभागों को निवेशकों की सभी समस्याओं का निस्तारण कराने हेतु निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधि, पदाधिकारी

और उद्यमी भी साथ मिल कर जिले में सुगम व्यापार की संभावनाओं में सहयोग करें। जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र के महाप्रबंधक मितुल गोयल ने उद्योगपतियों से संबंधित विभिन्न मामलों पर विस्तारपूर्वक जानकारी दी। बैठक में क्षेत्रीय प्रबंधक रीको धौलपुर प्रतियेश मीना, अधीक्षक अभियंता जेवीवीएनएल, उद्योगपति उपस्थित रहे।

नामांकन वृद्धि के लिए घर-घर दस्तक दे रहे राजकीय शिक्षक



सादुलपुर। उपखण्ड क्षेत्र में नामांकन वृद्धि के लिए राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खैर बड़ी के संस्था प्रधान संजय श्योराण की अगुवाई में नामांकन व नव प्रवेश के लिए घर-घर अभियान में बीराण एव हरियाणा के निकटवर्ती गांव सुधिवास के बच्चों एवं अभिभावकों से संपर्क किया प्राध्यापक चरण सिंह पुनिया ने कहा कि शिक्षा के बिना मनुष्य का जीवन अधूरा है इसलिए हमें अपने आसपास के क्षेत्र के लोगों को शिक्षा के बारे में जागरूक करना चाहिए। व्याख्याता छोगाराम ने राजकीय विद्यालय में राज्य सरकार की ओर से मिलने वाली सुविधाएं छात्रवृत्ति नि शुल्क पुस्तकें एवं पालनहार की जानकारी से अवगत कराया। वरिष्ठ अध्यापक सुरेंद्र लेकरा ने भी शिक्षा के प्रति अभिभावकों से अपने विचार प्रकट की। इस अवसर पर संस्था प्रधान संजय श्योराण, प्राध्यापक चरण सिंह पुनिया, व्याख्याता छोगाराम, वरिष्ठ अध्यापक विनोद जडिया, वरिष्ठ अध्यापक सुरेंद्र सिंह लेकरा, शिक्षक धर्मेन्द्र पूनिया, वरिष्ठ अध्यापक योगेश कुमार, शिक्षक रोशन खान, शारीरिक शिक्षक राजपाल सिंह धायल आदि मौजूद रहे।

न्यूज ब्रीफ

पूर्व सीएम के जन्मदिन पर खेजड़ी बचाओ अभियान राजस्थान का आगाज



जागरूक टाइम्स संवाददाता

चूरू। जिला सिविल राइट सोसायटी चुर एवं हर खेत खेजड़ी तौरई अभियान के संयुक्त तत्वावधान में पूर्व मुख्य मंत्री अशोक गहलोत के जन्मदिन पर खेजड़ी बचाओ अभियान राजस्थान का आगाज किया। कार्यक्रम की शुरुआत महिलाओं द्वारा खेजड़ी के तिलक लगाकर कर मंगलाचार से पूजा अर्चना की। सार्वजनिक भूमि विदाणा जोहड़ मुक्तिधाम में आयोजित कार्यक्रम में सौ ग्राम निवासी थोथा ओर एक किलो कली चूना के मिश्रण के अनुपात में पानी का घोल बनाकर हर खेजड़ी की जड़ जमीन से दो फुट ऊपर तक पोताई कर अभियान की शुरुआत की। कांग्रेस के जिला प्रवक्ता एडवोकेट रामेश्वर प्रजापति जिला अध्यक्ष सिविल राईट सोसायटी चूरू ने बताया कि खेजड़ी राजस्थान का सभी वृक्ष माना जाता है इसके राजस्थान की तुलसी भी कहा जाता है। ये पांच सात पीढ़ियों तक दिर्घायु तक परिवार का साथ निभाने वाली खेजड़ी का ही पौधा है। इसकी सांगरिया ओषधिय सब्जी अधिकाधिक उपयोग की जाती है, इसकी छाल पूजा हवन में आहुति में काम आती है, इसका लुंगी पशु चारा में काम आती है ये वर्षा आधारित पेड़ होता है, इसके संरक्षण सर्वधर्म के लिए दिया से बचाने व खेजड़ी को निरोग रखने का ये अभियान चलाया है। कार्यक्रम में वैद्य गोविंद प्रसाद शर्मा, भगवानाश्रम जांगीड़, नागर प्रजापत, नोरतमल जांगीड़, ठाकुर मल मेघवाल, प्रहलाद प्रजापत, नरेश मीणा, भारत अजित प्रजापत आदि ने अग्रिम सहभागिता दी।

बिना दहेज की शादी कर विकास बैरवाल ने दिया समाज सुधार का संदेश

फुलेरा। फुलेरा कस्बे के समीपवर्ती ग्राम रिंगणी निवासी इंजीनियर विकास बैरवाल पुत्र नाथूलाल बैरवाल ने एक प्रेरणादायक कदम उठाते हुए इंदौर के नंदानगर निवासी अजय देबाणे की पुत्री तन्वी देबाणे से बिना दहेज विवाह कर समाज में सकारात्मक संदेश दिया है। यह विवाह न केवल एक पारिवारिक आयोजन था, बल्कि सामाजिक बदलाव का प्रतीक भी बना। दहेज जैसी सामाजिक बुराई को जड़ से मिटाने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण पहल है। वर-वधु दोनों ने समाज के युवाओं को यह संदेश दिया कि दहेज एक अभिशाप है और इससे छुटकारा पाना समय की मांग है। समाज के प्रबुद्धजनों का मानना है कि इस प्रकार की पहलें तभी सफल हो सकती हैं जब समाज का शिक्षित और जागरूक वर्ग स्वयं आगे आए। इस विवाह के अवसर पर अनेक लोगों ने वर-वधु को आशीर्वाद दिया और उनके सुखद दांपत्य जीवन की कामना की। इस अनूठी पहल ने यह सिद्ध कर दिया कि यदि संकल्प हो तो समाज की जड़ में बैठी कुरीतियों को समाप्त किया जा सकता है।

परिसिमीन को लेकर आमरण

अनशन तीसरे दिन भी जारी



जागरूक टाइम्स संवाददाता

सादुलपुर। तारानगर ग्राम पंचायत व पंचायत समिति परिसीमन विरोध में तारानगर क्षेत्र के गांव गाजुवास गड़ाना में ग्रामीणों का शनिवार को आमरण अनशन तीसरे दिन भी जारी रहा। इस अवसर पर पूर्व सरपंच सुरेंद्र सहारण ने कहा की आने वाली 4 मई रविवार को तारानगर विधायक नरेंद्र बुड़ानिया व चूरू सांसद राहुल कस्वा आंदोलन के समर्थन में पहुंचकर आंदोलन को और मजबूत करेंगे। इस अवसर पर रामनिवास तिवाड़ी, सुरेंद्रसिंह राठीड़, रूपाराम सहारण, भानीराम सहारण, मदनलाल पांडिया, मुकेश पांडिया, रामजस सहारण, प्रताप नाई, मगन्यीर गोस्वामी, रामावतार पांडिया, सोहनलाल प्रजापत, मुखराम सहारण, इमलाल, रामकरण, हेमगर गोस्वामी, मुखलीधर पांडिया, च्यानन, जीवनराम सोनी, रामस्वरूप, गोशराम, हजजी, नेमजी गडाना , नरेश खारड़िया, बलवान सहित गांव के काफी लोग मौजूद रहे।

सादुलपुर ग्राम पंचायत पुनर्गठन पर उपखंड अधिकारी से मुलाकात कर आपत्ति दर्ज कराई



जागरूक टाइम्स संवाददाता

सादुलपुर। ग्राम पंचायत पुनर्गठन के संबंध में एक प्रतिनिधिमंडल ने उप खंड अधिकारी से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल के नेता सुनील पूनिया ने बताया कि उन्होंने उपखंड अधिकारी से पिछली आपत्ति खारिज करने और नई आपत्ति दर्ज करने की मांग की। **नई आपत्ति में रखी गई मांग :** प्रतिनिधिमंडल ने मांग की कि नई ग्राम पंचायत कामाण में जीराम बास को यथावत रखा जाए और खैर बड़ी ग्राम पंचायत में खैर छोटी एवं ढाणी खुडाणी को यथावत रखा जाए। प्रतिनिधिमंडल ने पिछली आपत्ति खारिज करने की मांग की और नई आपत्ति दर्ज की। **प्रतिनिधिमंडल में शामिल थे :** प्रतिनिधिमंडल में सुनील पूनिया के साथ अजीत बीरमाण, कुलदीप पूनिया ढाणी खुडाणी, सुबेसिंह मेघवाल ढाणी खुडाणी, विजेंद्र धानक, महेंद्र पूनिया ढाणी खुडाणी, मोहर सिंह ढाणी खुडाणी, विक्रम ढाणी खुडाणी, रतन पाल धानक, सतवीर सिंह पूनिया, तेजपाल मेघवाल ढाणी खुडाणी और सुरेश पूनिया शामिल थे। **उपखंड अधिकारी ने दिया आश्वासन :** उप खंड अधिकारी ने प्रतिनिधिमंडल की मांग पर विचार करने का आश्वासन दिया।

जागरूक टाइम्स

संपर्क करें

विज्ञापन देने के लिए

+91-9819170710
+91-9587022840
+91-8696111716

प्रति के लिए

9057203837

कार्यालय :- 0141-2743001

Email :- jtjaipur@gmail.com

नाम परिवर्तन
मैं सरोज सुलेख पत्नी
बालकृष्ण चौधरी, सैनिक बस्ती,
चूरू (राज.) के पासपोर्ट संख्या
M8743494 में दर्ज है तथा
भविष्य में अपने परिवर्तित नाम
सरोज चौधरी (SAROJ
CHOUDHARY) से जाना व
पहचाना जाए।

आज नीट यूजी का एजाम, तीन घंटे पहले से शुरू होगी एंट्री, आधे घंटे पहले गेट बंद

इस बार सभी परीक्षा केंद्र सरकारी स्कूल और कॉलेजों में, जिले के 18 परीक्षा केंद्रों पर बैठ सकेंगे 5736 विद्यार्थी

जागरूक टाइम्स संवाददाता
झुंझुनू। रविवार को एनटीए की ओर से होने वाले नीट यूजी के एजाम की तैयारियां पूरी कर ली गई है। झुंझुनू जिले में परीक्षा को लेकर 18 परीक्षा केंद्र बनाए गए है। पहले प्राइवेट स्कूलों में भी परीक्षा केंद्र बनाए जाते थे। लेकिन इस बार एनटीए से मिली गाइडलाइन के अनुसार सिर्फ सरकारी स्कूल और कॉलेजों में ही सेंटर बनाए गए है। जिसके चलते ना केवल झुंझुनू जिला मुख्यालय, बल्कि आबुसर, आबुसर का बास, इंडाली, उदावास, हेतमसर, चिड़ावा, मुकुंदगढ़ और नवलगढ़ में भी सेंटर बनाए गए है। इन सेंटरों पर कुल 5736 परीक्षार्थी परीक्षा दे सकेंगे। हर 12 परीक्षार्थियों पर एक वीक्षक लगाया गया है। लगभग हर सेंटर में एक कक्ष में 24 परीक्षार्थियों की बैठने की व्यवस्था की गई है।

जिसके लिहाज से हर कक्ष में दो वीक्षक होंगे। वहीं परीक्षार्थी किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, खासकर ब्लूटूथ और मोबाइल आदि से नकल ना कर सके। इसके लिए सभी परीक्षा केंद्रों में दो कक्षों के बीच एक जैमर लगाया गया। साथ ही परीक्षा केंद्रों के कक्षों को सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में रखा गया। सीसीटीवी कैमरों के अलावा वीडियोग्राफी भी होगी। जिसमें हर परीक्षार्थी का चेहरा रिकॉर्ड किया जाएगा। एडीएम डॉ. अजय आर्य तथा परीक्षा समन्वयक महेंद्र सिंह ने बताया कि परीक्षा केंद्रों पर प्रवेश परीक्षा शुरू होने से तीन घंटे पहले, यानि कि 11 बजे शुरू कर दिया जाएगा। यह प्रवेश दोपहर डेढ़ बजे तक दिया जाएगा। इसके बाद



परीक्ष केंद्र के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। परीक्षा केंद्र में प्रवेश के वक्त परीक्षार्थियों की बायोमेट्रिक मशीनों से पहचान और उपस्थिति होगी। दोपहर दो से शाम पांच बजे तक परीक्षा होगी। सभी परीक्षा केंद्रों के लिए एक—एक ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाया गया है। जो आएएस या फिर् तहसीलदार स्तर का अधिकारी है। उड़न दस्ते आदि भी तय कर दिए गए है। परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से और पारदर्शिता के साथ निपटे इसके लिए ट्रेनिंग के जरिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए है। केंद्रों पर बिजली व पानी की समुचित व्यवस्था की गई है। वहीं मेडिकल टीम में भी अलर्ट मोड पर रहेगी।

डीआईजी द्वारा परीक्षा में नियोजित जाब्ले को



किया गया ब्रीफ : इसी क्रम में रिजर्व पुलिस लाइन में डीआईजी शरद चौधरी द्वारा राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी- 2025 के दौरान जिले में सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियोजित किए जाने वाले अधिकारियों व कार्मिकों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ब्रीफ किया गया। इस दौरान एएसपी मुख्यालय देवेन्द्रसिंह राजावत भी मौजूद रहे। डीआईजी चौधरी ने बताया कि परीक्षा के सुचारु एवं निष्पक्ष संचालन को सुनिश्चित करने के लिए रिजर्व पुलिस लाइन में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिले के थाना व कार्यालय के लगे जाब्ले को ब्रीफ किया गया। उन्होंने कहा कि परीक्षा के लिए जिले में व्यापक

सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। जिले के कुल 18 परीक्षा केंद्रों पर प्रत्येक पर एक उप निरीक्षक, सहायक उप निरीक्षक स्तर के अधिकारी को नियोजित किया जाकर परीक्षा केंद्र का नोडल अधिकारी व पुलिस टीम लीडर नियुक्त किया गया है। परीक्षा केंद्रों के आस-पास, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन व भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर फिक्स पिकेट्स लगाए गए है। जिला मुख्यालय पर व पड़ौस के स्थित कुल 12 परीक्षा केंद्रों पर पुलिस मोबाइल पार्टियां लगाई गई हैं। परीक्षा के दौरान सुगम यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए संबंधित को आवश्यक निर्देश दिए गए। सभी पुलिसकर्मियों को परीक्षा केंद्रों पर शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने, किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोकने तथा परीक्षा को गोपनीयता एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। ब्रीफिंग के दौरान सभी पुलिसकर्मियों को परीक्षा केंद्रों पर सतर्कता बरतने, अनुशासन बनाए रखने तथा किसी भी अग्रिय स्थिति से निपटने हेतु निर्देशित किया। उन्होंने बताया कि सभी परीक्षा केंद्रों पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहेगा। संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जाएगी तथा नकल करवाने या कराने के प्रयासों पर सख्त कार्रवाई होगी। अफवाह फैलाने या भ्रामक सूचनाएं प्रसारित करने वालों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। आमजन से भी अपील की जाती है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें।

न्यूज ब्रीफ

लॉयन्स क्लब कुचामन फोर्ट सेवा ट्रस्ट ने मदद के लिए बढ़ाए हाथ



जागरूक टाइम्स संवाददाता

कुचामन सिटी। कुचामन के नजदीक गांव खाखड़की के वाल्मीकि परिवार की कमला की मृत्यु के बाद उसकी 20 दिनों की नवजात सहित 9 बेटियां बेसहारा हो गईं। इन बच्चियों के पिता एवं दादा के बीमार रहने की वजह से इस परिवार को मदद की जरूरत है संबंधी सूचना जब कुचामन सिटी की सामाजिक संस्था लॉयन्स क्लब कुचामन फोर्ट सेवा ट्रस्ट को मिली, तो संस्था ने क्लब के निदेशक लॉयन चन्द्रकुमार वर्मा के सौजन्य से मदद के लिए हाथ बढ़ाए। ट्रस्ट के अध्यक्ष लॉयन राम काबरा एवं पूर्व पार्षद गौरीशंकर शर्मा ने खाखड़की पहुंचकर शोक संतप्त परिवार को सांत्वना दी एवं सहयोग के रूप में एक महीने की खाद्य सामग्री प्रदान की। लॉयन राम काबरा ने बताया संकट के समय इंसान ही इंसान के काम आता है और यही मानवता है। इसी को महसूस करते हुए क्लब द्वारा वर्मा परिवार के सौजन्य से वाल्मीकि परिवार को हर माह 6 महीने तक खाद्य सामग्री का सहयोग किया जाएगा तथा इन बच्चियों की शिक्षा से सम्बंधित आवश्यकताओं में भी मदद करने के हर संभव प्रयास किए जाएंगे। रामेश्वरलाल वाल्मीकि, बोदूराम वाल्मीकि, प्रभुराम बुगालिया सहित ग्रामीणों ने वर्मा परिवार एवं लॉयन्स क्लब कुचामन फोर्ट सेवा ट्रस्ट का आभार जताया।

पर्यटकों को एलआईसी झुंझुनू ने दी श्रद्धांजलि



जागरूक टाइम्स संवाददाता

झुंझुनू। एलआईसी टीम अप्रतिम द्वारा विकास अधिकारी दीक्षांत झाझड़िया के प्रेरणा से जीवन रक्षा ब्लड सेंटर पर स्वेच्छिक रक्तदान का आयोजन कर पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए पर्यटकों को श्रद्धांजलि दी गई। उन्होंने बताया कि रक्तदान करके आप मरीजों के इलाज में सहयोग कर सकते हैं। क्योंकि इससे बड़ा पुण्य का कोई कार्य नहीं है। इस स्वेच्छिक रक्तदान में विकास अधिकारी दीक्षांत झाझड़िया, संदीप कौशिक, शाखा प्रबंधक ललित मीणा, राजेश पूनिया, मोहित कुमार, कृष्ण मुरारी, लोकेंद्र पिलानिया, करीना चौधरी, अनिल नेहरा, सोनू कुमार एवं समस्त एलआईसी टीम अप्रतिम ने भाग लिया।

डेढ़ लाख रूपए वापस लौटाकर दिया ईमानदारी का परिचय



जागरूक टाइम्स संवाददाता

झुंझुनू। राजस्थान रोडवेज के झुंझुनू डिपो के परिचालक तरुण बागोरिया व ऊर्फ तनू ने ईमानदार का परिचय देते हुए एक यात्री के डेढ़ लाख रूपए वापिस लौटाकर ईमानदारी का परिचय दिया है। दरअसल ये पैसे यात्री बस में भूल गया था। ईमानदारी का परिचय देते हुए तरुण ने यात्री को ढूंढकर उनको कार्यालय में मुख्य प्रबंधक गणेश शर्मा, प्रबंधक यातायात महेश, सहायक यातायात निरीक्षक भावी व प्रभारी विजेंद्र चौधरी की उपस्थिति में लौटाए।

कांता सैनी का असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर 29वीं रैंक से चयन

जागरूक टाइम्स संवाददाता

चिड़ावा। कस्बे के बाई नंबर तीन निवासी मिठाई विक्रेता शंकरलाल सैनी व द्रोपदी सैनी की लाडली ब्रिटिया कांता सैनी ने हाल ही में असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीतिक विज्ञान के पद पर चयन प्राप्त कर एक नया मुकाम हासिल किया है। कांता ने अपनी सफलता का राज पूरी लगन के साथ कड़ी मेहनत को बताया है व खुशी जाहिर की है। उसने बताया कि सफलता का कोई शॉर्ट कट नहीं होता। कांता ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता-पिता, पति, भाई-बहन, शिक्षकों व मित्रों को दिया है। बता दे कांता की शिक्षा डालमिया बालिका स्कूल चिड़ावा से हुई है। कांता की शायदी भाजयुमो के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक सैनी भादरा के छोटे भाई आनंद सैनी से हुई है। जो हाल जयपुर में प्रोपर्टी व बिल्डर का काम करते हैं। कांता सतोष कुमार सैनी जिला उपाध्यक्ष भाजपा ओबीसी मोर्चा की छोटी बहन हैं। कांता का प्रथम चयन सैकंड ग्रेड 2012 में हुआ था। शिक्षा को अपना लक्ष्य बना निरंतर प्रयास से 2017 में फर्सट ग्रेड राजनीति विज्ञान में चयनित हुई। वर्तमान सीनियर सैकंडरी स्कूल दादिया सांगानेर जयपुर में पोस्टेड है और अब हाल आरपीएससी द्वारा घोषित कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान में 29वीं रैंक प्राप्त कर अपना ही नहीं पूरे परिवार, समाज व मित्र सभी की गौरवान्वित किया है। यह सफलता उनकी कड़ी मेहनत, समर्पण और उत्कृष्ट शैक्षणिक क्षमता का परिणाम है। कांता की यह सफलता अन्य प्रतिभागियों के लिए भी प्रेरणादायक है।

भीषण गर्मी में पक्षियों के लिए लगाए परिडे

जागरूक टाइम्स संवाददाता

झुंझुनू। महावीर इंटरनेशनल सनराइज द्वारा वीरा प्रमिला शर्मा एवं वीर रंजन शर्मा के सौजन्य से नंदी गौशाला परिसर झुंझुनू में भीषण गर्मी को देखते हुए पानी के 25 परिडे लगाए एवं गौमाताओं को हरी सब्जियां खिलाई गईं। अंतरराष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्यामसुंदर जालान ने बताया कि परिडे लगाने के साथ साथ पानी डालने की भी समुचित व्यवस्था की जाती है। ताकि बेजुबान पक्षी पानी नियमित पी सके। कार्यक्रम में संस्था संरक्षक डॉ. एसएन शुक्ला, डॉ. नरेंद्रसिंह नरुका, जयप्रकाश शर्मा, देवेन्द्र कुमार गौड़, प्रदीप कुमार शुक्ला, लाला टेलर एवं कांता सैनी संख्या में गणमान्य जन उपस्थित रहे।

पूर्व सीएम गहलोत का जन्मदिन केक काटकर और परिंडे बांधकर मनाया



जागरूक टाइम्स संवाददाता
बगड़। कांग्रेस के वरिष्ठ गांधीवादी नेता पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के 74वें जन्मदिवस पर दिव्यज्योति लाइब्रेरी प्रांगण में केक काटकर पक्षियों के लिए चुगो के लिए दाना पीने के पानी के लिए कई जगह परिंडे बांधकर जन्मदिवस मनाया गया। पूर्व पार्षद लाइब्रेरी प्रबंधक श्यामलाल सैनी की अगुवाई में हुए इस कार्यक्रम में सर्वप्रथम पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के 74वें जन्मदिन पर सरिता चौधरी ने केक काटकर मुख्यमंत्री के स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की कामना की जाकर पक्षियों के लिए दाना पानी के लिए परिंडे बांधे गए। पूर्व पार्षद सैनी ने इस अवसर पर गहलोत के सदा जीवन उच्च विचार से प्रेरणा लेने का आह्वान करते हुए कहा कि पहलगाम हमले के बाद गहलोत ने

कार्यकर्ताओं को पहले ही आग्रह कर दिया गया कि उनके जन्मदिन पर तीन मई को कोई बड़े आयोजन नहीं किए जाए। ये उनकी देश के प्रति गहरी संवेदनशीलता को दर्शाता है। इस अवसर पर नीरज जाखड़, विशाल बुंदेला, अजीत झाझड़िया, गौरव खांडा, अंकित कृष्णियां, कृष्ण सैनी, सूरज कटेवा, चंद्रकांता सैनी, ममता सैनी, जिया कटेवा, सोनू सैन, शीतल कुमावत, मनीष सैनी, मोनिका कटेवा, सौरभ दिनोदिया, विकास मीणा, अंकित स्वामी, विक्रम झाझड़िया, वीरसिंह, शुभम सैनी, संदीप भांबू, सरिता डूडी, सुमन सैनी, गरिमा डूडी, हिमानी सैन, राकेश, किरण जांगिड़, नवदीप कटेवा, निशा सैनी, संदीप बुंदेला, वर्षा सैनी, चेतना भांबू, अनुष्का सैनी सहित दर्जनों लाइब्रेरियन उपस्थित थे।

नगरपालिका परिसर में मधुमक्खियों के हमले का डर

जागरूक टाइम्स संवाददाता
चिड़ावा। हाल ही में मंडेला बाईपास पर एक चलती गाड़ी पर हुए मधुमक्खियों के हमले जैसी पीड़ा चिड़ावा नगरपालिका परिसर में मौजूद लोगों को कभी भी भुगतनी पड़ सकती है। ज्ञातव्य है कि मंडेला बाईपास पर उधर से गुजर रही एक चलती गाड़ी पर मधुमक्खियों के झुंड ने अचानक हमला कर दिया। जिससे गाड़ी में सवार एक ही परिवार के चार सदस्य घायल हो गए। उस सभी घायलों का चिड़ावा के उप जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार किया गया। मंडेला बाईपास पर उधर से गुजर रही गाड़ी पर हुए मधुमक्खियों के उक्त हमले से चिंतित सामाजिक चिंतक महेश कुमार शर्मा आजाद ने आशंका व्यक्त करते हुए कहा कि मधुमक्खियों द्वारा इस प्रकार का हमला कभी भी चिड़ावा नगरपालिका में उपस्थित लोगों को भी भोगना पड़ सकता है। आजाद ने बताया कि चिड़ावा नगरपालिका के बगल में बनी जलदाय विभाग की प्रथम जल टंकी पर भी इन दिनों घोड़ा मधुमक्खियों के कई छत्ते लटक रहे हैं। विदित हो कि मंडेला बाईपास पर हुए मधुमक्खियों के उक्त हमले के बाद चिड़ावा थाना के कांस्टेबल राजेन्द्र शर्मा और हेड कांस्टेबल मंजू ने घटनास्थल का मुआयना करने के बाद अस्पताल पहुंचकर पीड़ितों से बात कर पूरी जानकारी जुटाई थी।



कुचामन विकास महिला मंच ने पुलिस थाने में लगाए पक्षियों के लिए परिण्डे

जागरूक टाइम्स संवाददाता
कुचामन सिटी। गर्मी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए समाज सेवा व जीव सेवा को समर्पित कुचामन विकास समिति की महिला इकाई महिला मंच ने एक अनुकरणीय पहल करते हुए कुचामन पुलिस थाना परिसर में बेजुबान पक्षियों के लिए परिण्डे एवं जल के कुंड स्थापित करवाए हैं। यह सेवा कार्य महिला मंच की अध्यक्ष बरखा जैन के नेतृत्व में शकुंतला मांधणिया के सौजन्य से सम्पन्न हुआ। इस मौके पर कार्यक्रम का शुरुआत शकुंतला मांधणिया के स्वागत से हुई, जिन्हें महिला मंच की ओर से बरखा जैन ने माला पहनाकर सम्मानित किया। वहीं पुलिस थानाधिकारी सतपाल ने बाबूलाल मांधणिया का दुपट्टा पहनाकर अभिनंदन किया। पुलिस अधिकारियों के सहयोग से थाना परिसर में पानी के कुंड और थान से भरे परिण्डे लगाए गए, ताकि गर्मी में प्यासे और भूखे पक्षियों को राहत मिल सके। महिला मंच की सचिव ज्योति अग्रवाल ने इस दौरान कहा कि 'जल ही जीवन है। मानव, पशु, पक्षी, पर्यावरण, वायु और जल-सब एक-दूसरे के पूरक हैं। यदि मनुष्यता को बचाना है तो हमें पशु-पक्षियों और प्रकृति की रक्षा करनी होगी।' कार्यक्रम में रही महिलाओं की भागीदारी इस प्रेरणादायक सेवा कार्य में



महिला मंच की अनेक सदस्यों ने भाग लिया, जिनमें शामिल थीं। बरखा जैन, ज्योति अग्रवाल, संगीता अग्रवाल, किरण अग्रवाल, विनीता अग्रवाल, मधु अग्रवाल, श्रीदेवी दीक्षित, उमा गौड़, जिम्मी पाटौदी, हेमा गठानी, कृष्णा मंत्री, आशा झंवर, शकुंतला मांधनीय, सरिता कावरा, उमा खटोड़, और निर्मला गौड़। इसके

अतिरिक्त थाना प्रभारी सतपाल, सरोज, सोहनी, पूर्ण, देवीलाल, मंजू आदि पुलिस स्टाफ भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंत में थानाधिकारी सतपाल ने कुचामन विकास महिला मंच की सराहना करते हुए कहा कि 'इस प्रकार का जीव सेवा कार्य वास्तव में सराहनीय है और इससे समाज में सकारात्मक संदेश जाता है।'

गुढ़गौड़जी में पेयजल की समस्या को लेकर महिलाओं ने जताया आक्रोश

जागरूक टाइम्स संवाददाता

गुढ़गौड़जी। कस्बे में पेयजल संकट के खिलाफ ऋषिपुरा मोहल्ले की महिलाएं सड़कों पर उतरी और सुबह सुबह पंप हाउस पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। महिलाओं ने बताया कि पिछले दो महीने से पानी की एक बूंद तक उनके घर तक नहीं पहुंची है और लगातार बाहर से टैंकर मंगवा कर पानी की पूर्ति की जा रही है। किशन गोरसिया ने बताया कि जल की पूर्ति पूरे गांव में भी हो रही हैं। कई बार शिकायत करने पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। जलदाय विभाग इतना सुस्त है कि शिकायत लेकर जाते हैं तो मौके पर कोई अधिकारी नहीं मिलता और शिकायत दर्ज नहीं होती। महिलाओं ने सुबह-सुबह पंप हाउस पहुंचकर पानी को खोलने से रोका। उसी वक्त वहां तैनात कर्मचारियों ने जलदाय विभाग के उच्च अधिकारियों से फोन पर बात की और यह आश्वासन दिया कि एक-दो दिन में इस समस्या से निपटारा कर लिया जाएगा।

सवाल



शिक्षा का व्यवहारिक ज्ञान देते है विद्या भारती विद्यालय : कुमावत

■ आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक का वार्षिकोत्सव

जागरूक टाइम्स संवाददाता सुमेरपुर। आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक के वार्षिकोत्सव का शुभारंभ मुख्य अतिथि मंत्री जोराराम कुमावत, मुख्य वक्ता जोधपुर प्रंतकार्यवाह खीमाराम एवं समाजसेवी व भामाशाह मुपुब मेहता की ओर से सरस्वती पूजन के साथ किया गया। मुख्य वक्ता ने कहा कि विद्या भारती शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका में आज सबसे आगे है। शिक्षा के साथ संस्कार का जीवन में अधिक महत्व है। संस्कार के बिना शिक्षा का कोई महत्व नहीं है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की संक्षिप्त जानकारी एवं समाज विकास की भूमिका में पंच परिवर्तन का विषय भी सबके सामने रखा।

मुख्य अतिथि कुमावत ने कहा कि अगर अपनों को शिक्षा का व्यवहारिक ज्ञान अगर कोई देता है तो वे विद्या भारती विद्यालय है। वर्तमान परीक्षा परिणाम में भी सर्वाधिक राष्ट्रीय स्तर पर अगर किसी ने गौरान्वित किया है तो वे विद्या भारती के विद्यार्थी है। सनातन धर्म को श्रेष्ठ बताते हुए बताया कि भारत ने विश्व स्तर पर जो अपना वर्चस्व कायम किया है उसके पीछे भी विद्या भारती द्वारा दी गई शिक्षा का व्यापक विस्तार है। भारतीय शिक्षा कैसी व किस प्रकार से प्राचीनकाल से समाज को गढ़ने का कार्य करती है। इस संदर्भ उन्होंने रामायण के उदाहरण के माध्यम से भी बताया। कार्य 'म' में अरुण से एकादशी तक के विद्यार्थियों ने विभिन्न



प्रकार की सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। संस्कृति ज्ञान व अन्य श्रेष्ठ कार्य के लिए अभिभावक,

प्रबुद्धजन, आचार्य-आचार्या व विद्यार्थियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया।

पुराना नाडा में फैले कचरे का किया निस्तारण

जागरूक टाइम्स संवाददाता सुमेरपुर। शहीद भगतसिंह सेवा समिति की ओर से शनिवार को सफाई अभियान अध्यक्ष अमृत परिहार के नेतृत्व में चलाया गया।



समिति के नरेश व कुलदीप सिंह ने बताया कि नगर में जाड़ा माता मंदिर परामना में पुराना नाडा में फैले कचरे को एकत्रित कर निस्तारण किया गया। नाडे की सफाई कर भरने की तैयारी की गई। इस कार्य में लालाराम, सुरेश मारू, कैलाश सोलंकी, जबरसिंह परमार, अशोक भाटी, सुरेश मारू, अशोक, मालाराम पुजारी, रिकेश महाराज आदि ने सहयोग प्रदान किया।

चारभुजा मंदिर पर ध्वजारोहण आज, निकलेगी शोभायात्रा



जागरूक टाइम्स संवाददाता

देसूरी। कस्बे में रविवार को कुमावत समाज की ओर से चारभुजा मंदिर पर विधिवत पूजा-अर्चना के साथ ध्वजारोहण किया जाएगा। ध्वजारोहण से पूर्व शोभायात्रा निकाली जाएगी जो करेली वास स्थित सोहनलाल पुत्र केसाराम कुमावत के निवास स्थान से आरंभ होकर बेंड-बाजे और गाजे-बाजे के साथ चारभुजा मंदिर पहुंचेगी। मंदिर में भगवान चारभुजानाथ की विधिपूर्वक पूजा-अर्चना के पश्चात ध्वजा चढ़ाई जाएगी। इस अवसर पर भगवान को छप्पन भोग का विशेष चढ़ावा अर्पित किया जाएगा। ध्वजा के मुख्य लाभार्थी सोहनलाल कुमावत, मूलाराम कुमावत, प्रेम कुमावत, दिलीप कुमावत व सांखला परिवार होंगे। छप्पन भोग का चढ़ावा उदाराम पुत्र चमनाराम कुमावत द्वारा लिया गया। आयोजन को लेकर समाजजनों में खासा उत्साह है।

पालिका ने शुरू किया सिंहप्रस्थ तालाब में पानी पहुंचाने का कार्य

जागरूक टाइम्स संवाददाता सुमेरपुर। इस भीषण गर्मी में नगर के तखतगढ़ रोड स्थित सिंहप्रस्थ तालाब में पानी की कमी से मछलियों के जीवन पर मंडराते खतरे को भांपते हुए स्थानीय प्रशासन भी तालाब में पानी डलवाने के लिए आगे आ गया है। एसडीएम कालुराम कुम्हार एवं इओ नरपतसिंह राजपुरोहित के निर्देश पर एसआइ यशवंत परिहार ने पाइप डलवाकर पानी पहुंचाने का कार्य शुरू कराया। परिहार ने बताया कि नगर पालिका द्वारा निजी कुएं से 500 फीट पाइप लाइन लगाकर सिंहप्रस्थ तालाब में पानी पहुंचाने का कार्य शुरू किया है जो नियमित रूप से गर्मियों तक चालू रहेगा। यह पानी तखतगढ़ रोड के उस पार निजी कुएं से पाइप लाइन के जरिए रोड के नीचे डाले गए बड़े पाइप में छोड़कर पहुंचाया जा रहा है। साथ ही सिंहप्रस्थ तालाब परिसर में पालिका के दो ट्यूबवेल के जरिये 24 घंटे तालाब में पानी डलवाने का कार्य जारी है। जिनसे भी निरंतर पानी तालाब में जा रहा है।



जवाई में दिखा शिकारी बाज ओस्रे का रोमांचक अंदाज

ये समुद्री बाज 5 से 10 सैकंड में तैरती मछलियों का करता है शिकार

जागरूक टाइम्स संवाददाता सुमेरपुर। जवाई बांध के दूरस्थ कैचमेंट क्षेत्र में ओस्रे पक्षी का रोमांचक व्यवहार देखा जा सकता है। यहां मछलीमार बाज पानी में तैरती मछलियों पर तेजी से झपट्टा मारता है। अपने मजबूत पंजों से शिकार को उठाकर ले जाता है। ये अपने शिकार और उसके अजूबे तरीके के बारे में जाने जाते हैं। शिकार करते वक्त उनका लक्ष्य ऐसा रहता है कि पानी या फिर समुद्र में तैरती मछली का महज 5 से 10 सैकंड में शिकार कर लेते हैं। इसे मछलीमार, मछारियां और मछमंगा के नाम से भी जाना जाता है। नेपाल में इसे मछाव्रग, बंगाल में कुरारी, तेलगु में कोरोमन गाड़डा और मलयालम में तालिपारुन्डा कहते हैं। अभी यहां पर इनकी संख्या 8 से 9 के करीब है।



फोटो : लक्ष्मण पारंगी

अप्रैल से जून के बीच यूरोप के देशों में प्रवास कर जाते

ये बाज सर्दियों में पूरे भारत के बड़े जलभराव क्षेत्रों में प्रवास करते हैं। जवाई में भोजन की प्रचुरता के कारण ये बाज अगली बारिश तक ठहर सकते हैं। अधिकांश बाज अप्रैल से जून के बीच यूरोप के देशों में प्रवास कर जाते हैं। जवाई में सर्दियों के दौरान इनका प्रवास रहता है। कुछ बाज पूरे साल यहीं रह जाते हैं। विज्ञान में इसे पॉडियन हेलियेटस के नाम से वर्गीकृत किया गया है। भारत में कुछ स्थानों को छोड़कर ये बाज यूरोप में ही प्रजनन के लिए प्रवास करते हैं।

श्रद्धा और वैदिक परंपरा के साथ मनाया यज्ञ दिवस

जागरूक टाइम्स संवाददाता सुमेरपुर। देव दरबार परिसर में शनिवार को अंतरराष्ट्रीय यज्ञ दिवस के अवसर पर आस्था वैदिक संस्थान के तत्वावधान में विशेष यज्ञ का आयोजन किया गया। आयोजन में संस्था के सदस्यों सहित स्थानीय नागरिकों ने श्रद्धा और उत्साह के साथ भाग लिया। यज्ञ कार्य 'म' के दौरान वैदिक मंत्रोच्चार और अग्निहोत्र की विधियां संपन्न की गईं। उपस्थित सदस्य परंपरागत वेशभूषा में यज्ञ में आहुति देते नजर आए। कार्य 'म' के प्रमुख वक्ता एवं पतंजलि युवा भारत के प्रदेश प्रभारी नरेंद्र आस्था ने यज्ञ के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यज्ञ करने से वायुमंडल की शुद्धि होती है, पर्यावरण प्रदूषण में कमी आती है और अनेक प्रकार के रोगाणुओं का नाश होता है। आयोजन में विशेष रूप से भारत स्वाभिमान तहसील प्रभारी वेदप्रकाश आर्य, आस्था वैदिक संस्थान निदेशक कमलेश परिहार, जीत माली, लक्ष्मणसिंह राजपुरोहित, अक्षर परिहार, खुशी



देवासी, मनोहरसिंह देवड़ा, कोमल माली आदि सदस्यों ने यज्ञ की विभिन्न गतिविधियों में सक्रिय सहभागिता निभाई। यज्ञ स्थल को पारंपरिक सजावट और भगवती प्रतिमा

से सुशोभित किया गया था। जिससे वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण हो गया। अंत में सभी प्रतिभागियों को यज्ञ का महत्व समझाते हुए साहित्य वितरित किया गया।

सड़क हादसे में पूर्व उप सरपंच की मौत

जागरूक टाइम्स संवाददाता बाली। मिरोक्षर में एक सड़क दुर्घटना में सादड़ा निवासी लाटड़ा के पूर्व उप सरपंच महिपालसिंह की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार सादड़ा निवासी महिपालसिंह पुत्र गोविंदसिंह धरेल काम से सेवाड़ी गए थे। वापसी में वाहन नहीं मिलने पर वे पैदल लुणावा की ओर लौट रहे थे। मिरोक्षर और सेवाड़ी के बीच नदी पुलिया के पास बरगद के निकट एक जीप ने महिपालसिंह को टक्कर मार दी। जिससे महिपालसिंह की मौके पर ही मौत हो गई। जीप अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। लक्ष्मणसिंह पुत्र शैतानसिंह ने जीप चालक की पहचान सादड़ा निवासी विक्रमसिंह राजपूत के रूप में की। लक्ष्मणसिंह और अन्य लोग घायल जीप चालक और मृतक महिपालसिंह को सेवाड़ी अस्पताल ले गए। जहां चिकित्सकों ने महिपालसिंह को मृत घोषित किया। मृतक के भाई भैरुसिंह ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों को सौंप दिया।

सस्ता बिक रहा पनीर और घी, नकली होने का संदेह गहराया



फाइल:फोटो

जागरूक टाइम्स संवाददाता सांडेराव। कस्बे सहित आसपास ग्रामीण क्षेत्र में पनीर और घी बनाने का काम जोरों पर है। घी व पनीर को सस्ते में बेचे जाने से इनके नकली होने को लेकर संदेह बना हुआ है। अभी तीन दिन पूर्व फोरलेन हट्टवे पर बिरामी पुल के नीचे रानी की ओर से आई बोलरो के पर में लाए गए मावे के 22 कटटे निजी ट्रैवल्स बस में चढ़ाए गए थे। जिसे मुखबीर की सूचना पर पुलिस ने बस को रुकवा कर जब्त किया था। मावे के नकली होने के संदेह पर फुड अधिकारी को मौके पर बुलवा कर सभी कट्टों से सैंपल लिए गए।

जिसकी जांच रिपोर्ट आने पर वस्तुस्थिति का पता चलेगा। लेकिन, इतना तय है कि कस्बे व आसपास गांवों में मावा, पनीर व घी बनाने का कार्य जोरों पर है। चूंकि यह उत्पाद सस्ते में बेचे जा रहे हैं इस लिए हर कोई इनके नकली, मिलावटी होने पर संदेह जता रहा है। लोगों को मानना है कि क्षेत्र में नकली घी, पनीर व मावा बनाने का कार्य हो रहा है जिसे विभिन्न क्षेत्रों में आपूर्ति किया जाता है। दुकानों पर यह उत्पाद काफी सस्ते में बेचा जा रहा है जिससे इनके नकली होने की आशंका बलवती बनी हुई है। वैसे भी

जिला प्रशासन एवं चिकित्सा विभाग के संयुक्त तत्वावधान में कार्रवाई करते हुए नकली पनीर व घी बनाने की अलग अलग फैक्ट्रियों कर पूर्व में कार्रवाई की जा चुकी है। लेकिन, कुछ कार्रवाई के बाद फिर से मामला ढील पड़ने से ऐसे नकली उत्पाद बनाने वालों के हौसले बुलंद हैं। प्रशासन का शिकंजा बाजार में छोटे-छोटे काउंटर्स से बिक रहे इन मिलावटी खाद्य सामग्रियों की जांच पर अभी तक नहीं कस सका है। बाजार में खाद्य सामग्री पर निरंतर जांच पड़ताल की आवश्यकता है।

पुलिस ने निजी ट्रैवल बस की छत से हाल ही में पकड़ा था 22 कटटे सदिग्ध मावा

खीमज माता मंदिर में लगाई धोक, भजनों पर झूमे श्रोता

जागरूक टाइम्स संवाददाता खिंवाड़ा। दिवेर-नयागांव मार्ग पर दिवेर नाल स्थित सोलंकी वंश की कुलदेवी खीमज माता मंदिर प्रांगण में खीमज माता मेला कमेटी व मंदिर विकास समिति के तत्वावधान में आयोजित खीमज माता के मेले में शनिवार को श्रद्धालु उमड़ पड़े। श्रद्धालुओं ने खीमज माता के दरबार में धोक लगाकर अमन-चैन की कामना की। शुभ मुहूर्त में वणदार निवासी उत्तमचंद जैन परिवार की ओर से ढोल ढमाकों व जयकारों के बीच मंदिर शिखर पर ध्वजा चढ़ाई गई। मंदिर विकास समिति की ओर से महाप्रसादी का आयोजन किया गया। एक शाम खीमज माता के नाम भजन संध्या में गायक दुर्गेश मारवाड़ी ने गणपति व गुरु वंदना के बाद एक से बढ़कर एक भजन प्रस्तुत कर

श्रोताओं को झूमने पर मजबूर कर दिया। इस अवसर पर समिति अध्यक्ष भंवरसिंह जोजावर, मेला कमेटी के मानवेंद्रसिंह बागोल, गणेश चौधरी, किशोरकुमार, जयंतिलाल, भगवतसिंह बागोल, अजीतसिंह, गोपसिंह, महेंद्रसिंह बासोर, मनोहरसिंह पनोता, गणपतसिंह मगरतलाव सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे।



गायों को खिलाया हरा चारा

जागरूक टाइम्स संवाददाता बाली। मिशन रक्षा फाउंडेशन के सदस्यों और भामाशाहों के सहयोग से ग्रीष्मकालीन गो ग्राम सेवा अभियान के तहत रेबारियों की ढाणी से गोवंश को हरा चारा खिलाया गया। संस्था और भामाशाहों के संयुक्त प्रयास से वर्ष 2015 से लगातार यह सेवा कार्य किया जा रहा है। बरसात आने तक प्रतिदिन गायों को हरा चारा और पानी दिया जाएगा। इस मौके पर साकलाराम देवासी, मादाराम देवासी, समाजसेवी लाखाराम देवासी, हरीराम देवासी, जेठाराम देवासी, फगाराम, मूलाराम देवासी, नगाराम, फूलाराम देवासी सहित ग्रामवासी मौजूद रहे।

जयकारों के बीच हुई माताजी व भैरुजी की मूर्ति स्थापना

जागरूक टाइम्स संवाददाता देसूरी। निकटवर्ती गुड़ा जाटान में आयोजित चार दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के अंतिम दिन शनिवार को शुभ मुहूर्त में संतों के सान्निध्य में मंत्रोच्चार,

जयकारों के बीच धूमधाम तनोट माता व भैरुनाथ की मूर्ति की स्थापना मन्दिर में की गई। ग्रामीणों की जयकारों से मन्दिर प्रांगण गूंज उठा। इससे पूर्व शु वार को हुई भजन संध्या

में भजन महावीर सांखला व सोनू सिसोदिया ने शानदार भजन प्रस्तुत कर सभी को भक्ति रस से सरोबार कर दिया। नृत्यकारों ने भी शानदार नृत्य प्रस्तुत किया। भजन संध्या में विभिन्न चढ़ावों के बलए बोलियां बोली गईं। संतों व अतिथियों का स्वागत सम्मान किया गया। शनिवार सुबह मन्दिर में तोरण पूजन व मोबन स्थापना की गई। दोपहर में संतों की उपस्थिति में धूमधाम से मंत्रोच्चार के बीच मन्दिर में तनोट माता व भैरुनाथ की मूर्ति की विधिवत स्थापना की गई। इसके बाद श्रद्धालुओं ने आराध्य की पूजा अर्चना के साथ दर्शन लाभ लिया। इस दौरान मोनाराम भाटी अध्यक्ष शत्रिप घांची समाज एवं तनोट व भैरुजी मन्दिर समिति, सुरेश भाटी उपाध्यक्ष, मोहनलाल भोपाजी, वि मसिंह इंडा सदस्य पंचायत समिति सहित गणमान्य ग्रामीण उपस्थित थे।

विधायक ने किया विकास कार्यों का उद्घाटन

जागरूक टाइम्स संवाददाता बाली। समीपवर्ती कोटबालियान में विधायक पुणेंद्रसिंह राणावत ने विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन किया। इस मौके पर राणावत पुनाडिया में खेल मैदान और पुस्तकालय का निर्माण कार्य भी शुरू किया गया। कोटबालियान में गोचर लालराई रोड पर खीमावत ट्रस्ट के सहयोग से वृक्षारोपण कार्य का शुभारंभ हुआ। इसके साथ ही कुमार बिल्डर पूना भामाशाह परिवार द्वारा खेल मैदान की चारदीवारी और फेंसिंग का काम भी शुरू करवाया दिया गया। कार्य 'म' में प्रधान पानेरीदेवी, जिला उप प्रमुख जगदीश चौधरी, प्रशासक हंजाबाई देवासी का सान्निध्य रहा। पस सदस्य भंवरलाल बावल, आनंदकंवर, जगमोहन, ग्राम विकास अधिकारी रामचंद्र यादव, पूर्व सरपंच रतनसिंह पुनाडिया, सेवानिवृत्त



तहसीलदार वेनाराम, भाजपा मंडल अध्यक्ष साकलाराम देवासी समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे।

झोटड़ा चितलवाना में सामूहिक गंगा प्रसादी समारोह को बनाया नशामुक्त

प्लास्टिकमुक्त व जूटनमुक्त भी रहा समारोह

जागरूक टाइम्स संवाददाता सांचौर। खिलेरियों और गोदरों की ढाणियों में आयोजित सामूहिक गंगा प्रसादी समारोह इस बार कुछ अलग और प्रेरणादायक रहा। इस धार्मिक आयोजन को पर्यावरण सेवक टीम सांचोरी-मालाणी ने पूरी तरह नशामुक्त, प्लास्टिकमुक्त और जूटनमुक्त बनाकर एक मिसाल कायम की। टीम ने न केवल आयोजन को स्वच्छ और पर्यावरणमित्र बनाया बल्कि सैकड़ों लोगों को जागरूक करते हुए सामाजिक जिम्मेदारी का संदेश भी दिया। पर्यावरण सेवकों ने समारोह स्थल पर एक पर्यावरण स्टॉल स्थापित की, जहां आने वाले मेहमानों को तांबे के लोटे से जल सेवा कर जल संरक्षण और स्वच्छता का संदेश दिया। साथ ही, उन्हें मिट्टी और धातु के बर्तनों के उपयोग के लिए प्रेरित किया। टीम ने यह शर्त रखी कि आयोजन में नशे का पूर्णतया निषेध रहेगा और सिंगल



भोजन का एक कण भी नहीं जाने दिया व्यर्थ

भोजनशाला को इस तरह संचालित किया गया कि भोजन का एक कण भी व्यर्थ नहीं गया। पर्यावरण सेवकों की सेवा भावना का परिणाम यह रहा कि करीब तीन हजार लोगों ने प्रसादी ग्रहण की और किसी प्रकार की जूटन नहीं हुई, जिससे भारी मात्रा में अन्न की बर्बादी रोकी जा सकी।

यूज प्लास्टिक का कोई उपयोग नहीं होगा। इस शर्त के साथ टीम ने जगह-जगह बैनर और तख्तिरियां लगाकर हर व्यक्ति को यह समझाया कि पर्यावरण का संरक्षण कितना आवश्यक है।

>>> इनका रहा सहयोग

इस मुहिम में प्रमुख रूप से पर्यावरण सेवक किशनाराम बांगड़ा, स्टेट अवाइड शिक्षक जगदीशप्रसाद विश्‍नोई, धोलाराम कपासिया, वगताराम भाभू, गोपाल गोदरा, डॉ. उदयराम खिलेरी, मगाराम काठेला, अजुनाराम खिलेरी, पीराराम धायल, लादूराम भादू सहित कई सेवकों ने भाग लेकर सहयोग में सहभागिता निभाई।

>>> जमकर की सराहना

समारोह में उपस्थित रहे पूर्व मंत्री सुखराम विश्‍नोई, सरपंच रामगोपाल धायल, रघुनाथाराम विश्‍नोई (अधीक्षण अभियंता), देवेन्द्र पंवार (सहायक अभियंता), तहसीलदार सुरेश कुमार, पंचायत समिति सदस्य सुरेन्द्र विश्‍नोई समेत अनेक जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और ग्रामीणों ने इस अभिनव प्रयास की सराहना की और भविष्य में भी ऐसे आयोजनों में सहयोग देने की इच्छा जताई।



भाजपा प्रदेशाध्यक्ष राठौड़ का किया स्वागत

जागरूक टाइम्स संवाददाता जीवाणा। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ का भीनमाल से जोधपुर जाते वक्त भाजपा मंडल अध्यक्ष तुलसाराम चौधरी के नेतृत्व में स्वागत किया गया। कार्यक्रमताओं के आत्मीय स्वागत से प्रदेशाध्यक्ष खुश नजर आए। साथ ही भाजपा के वरिष्ठ नेता नाहरसिंह जोधा व जिलाध्यक्ष जसराज राजपुरोहित का भी स्वागत किया गया। भाजपा के पूर्व मंडल

अध्यक्ष तखतसिंह, वरिष्ठ भाजपा नेता खेतसिंह, खेतलावास सरपंच हाजारा, दुदवा समाजसेवी सांखलाराम, भाजपा एससी मोर्चा मंडल अध्यक्ष मानाराम परमार, रामाराम, ताराचंद राजगुरु, पीराराम, छगनलाल सुथार, नेनाराम, डल्लाराम, डायलाल, तुलसाराम देवासी, मेराराम चौधरी, बदराम, नरिंगाराम, पदमाराम चौधरी, धर्माराम, चन्द लोहार, लीलाराम, ओबसिंह, भटाराम गर्ग आदि मौजूद थे।

सरियादे मंदिर का वार्षिकोत्सव आज

जागरूक टाइम्स संवाददाता रानीवाड़ा। बाईपास रोड स्थित सरियादे मंदिर की 24वीं वर्षगांठ रविवार को हर्षोल्लास से मनाई जाएगी। मंदिर में हर वर्ष की तरह कई कार्यक्रम होंगे। अध्यक्ष प्रहलादकुमार ने बताया कि वर्षगांठ में दस पट्टी राजस्थान, गुजरात के लोग आएंगे। रात को भजन कार्यक्रम होगा।

मनरेगा श्रमिकों को वितरित किए एनर्जी पैकेट



जागरूक टाइम्स संवाददाता रानीवाड़ा। शिव साई सेवा समिति के तत्वावधान में गर्मी को लेकर चल रहे विशेष अभियान के तहत भामाशाह आकाशकुमार अमीचंद रुपचंद जैन के सहयोग से महानरेगा श्रमिकों को ग्लूकोज डी के पैकेट वितरित किए गए। मनरेगा मजदूरों के बीच नशा मुक्ति को लेकर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। शिव साई सेवा समिति अध्यक्ष मुकेश खडेलवाल ने तंबाकू से होने वाले दुष्प्रभावों की जानकारी दी। नशे को रोकने के लिए घर परिवार की

बालिकाओं का विशेष योगदान देने आगे आने का आह्वान किया। मेट दिनेश राणा ने नशे के कारण ही देश में गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वालों की बड़ी तादाद है। केवाराम, करनाराम, हंसाराम, बगदाराम, आसुराम, रुपीदेवी, सुआदेवी, वरजुदेवी, मेथदेवी, उमदेवी, वर्षादेवी, ललीता, जमनादेवी, जसू, शारदा, दीवादेवी, मंजू, जोशना, पारुदेवी सहित कई महिलाओं ने नशीले पदार्थों से होने वाली हानि एवं जानलेवा बीमारियों का जिक्र करते हुए उनसे बचाव के सुझाव दिए।

हज पर जाने वाले यात्रियों का किया स्वागत

जागरूक टाइम्स संवाददाता मंडार। कस्बे से आगामी दिनों में हज पर जाने वाले यात्रियों का शनिवार सवेरे पीथपुरा निवासी राजाराम पुरोहित की ओर से उनके निवास पर स्वागत किया गया। सभी के लिए स्नेह भोजन की व्यवस्था भी की गई। पुरोहित

ने बताया की हज पर जाने वाले गुलाब नबी, बसीर राजड, रमजान खान, अशकर खां, खाजू मोयला का अभिनंदन किया गया। कालिलाल रावल, नानाराम देवासी, मुकेश कुमार, खेताराम पुरोहित, गोकलाराम, जगदीश जोशी आदि मौजूद थे।

खाद्य तेलों पर निर्भरता को कम करने को शुरु की नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल-तिलहन की शुरुआत

जागरूक टाइम्स संवाददाता सिरौही। खाद्य तेलों का उत्पादन बढ़ाने एवं आयातित खाद्य तेलों पर भारत की दूसरे देशों पर निर्भरता को कम करने के लिए घरेलू तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देकर किसानों की आय में सुधार के लिए कृषि एवं किसान कल्याण विभाग भारत सरकार के द्वारा नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल तिलहन नवीन मिशन प्रारम्भ किया गया है। कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक शंकरलाल मिषा ने बताया कि मिशन का उद्देश्य रणनीतिक रूप से आयातित खाद्य तेलों पर भारत की निर्भरता को कम करने और घरेलू तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देना है। जिलास्तर पर जिला ऑयल सी मिशन एवं जिला एग्रीक्यूल्चरल कमेटी के रूप में होगी, जिसकी अध्यक्षता जिला कलक्टर करेंगे।

मिट्टी की होगी मृपत में जांच

जिले में कलस्टर गतिविधियों के तहत 6500 हैक्टेयर में मृगफली, तिल, अरण्डी और सरसों की अधिसूचित प्रमाणित किस्मों के बीजों का शत प्रतिशत सहायता पर निःशुल्क वितरण किया जाएगा। इसके साथ ही 6500 हैक्टेयर में ही किसानों के लिए एक हैक्टेयर क्षेत्र तक सीमा में कलस्टरों में प्रदर्शन आयोजित किए जाएंगे। इस योजना के तहत प्रत्येक किसान के खेत की मिट्टी की प्रयोगशाला से निःशुल्क जांच की जाएगी।

मिशन में होंगे वैल्यू चैन पार्टनर

मिशन में प्रत्येक कलस्टर का प्रबंधक एक वैल्यू चैन पार्टनर की ओर से किया जाएगा। जिसके चिह्निकरण के लिए 5 मई तक इच्छुक आवेदन कर सकता है। बीसीपी को मिशन के तहत किसानों का पंजीकरण, अनिवार्य मृदा स्वास्थ्य परीक्षण, बीजों का राजकीय संस्थानों से आवंटन अनुसार वितरण, टीएमएफ के समन्वय से किसान प्रशिक्षण व फिल्ड स्कूल का आयोजन, सलाहकार सेवाओं का प्रसार इत्यादि कार्य संपादित करने होंगे।

किसानों को मिलेगी सहायता

कटई के बाद मूल्य श्रृंखला के लिए 10 टन क्षमता तक की तिलहन के प्रसंस्करण के लिए मशीनरी और उपकरण के लिए सहायता लागत कर 33 प्रतिशत या अधिकतम 9 लाख 90 हजार तक के अनुदान का प्रावधान किया गया है।

कस्टम हायरिंग केंद्र से किसानों को किराए पर मिलेंगे कृषि उपकरण

जागरूक टाइम्स संवाददाता जालोर। कृषि विभाग की ओर से राजकिसान कस्टम हायरिंग एप विकसित किया गया है। जिसे किसान प्ले स्टोर से अपने फोन में डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप से कृषक घर बैठे ही आवश्यकतानुसार कस्टम हायरिंग केंद्र पर उपलब्ध कृषि यंत्रों की आनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। कस्टम हायरिंग केंद्र का उद्देश्य कृषकों विशेषकर कम भूमि जोत वाले कृषकों जिनके लिए सभी प्रकार के कृषि यंत्र विशेष रूप से उच्च लागत वाले व्यक्तिगत क्रय करना व्यवहारिक नहीं है, उनको उचित समय पर खेत की तैयारी, बीज बुवाई के लिए कृषि यंत्र उपलब्ध करवाना है। कस्टम हायरिंग केंद्रों पर सभी महंगे कृषि यंत्र/उपकरण किराए पर उपलब्ध रहेंगे। जिसकी जानकारी राजकिसान कस्टम हायरिंग एप पर उपलब्ध है। इसमें कृषि यंत्र की आनलाइन बुकिंग से लेकर भुगतान तक की प्रक्रिया को शामिल किया गया है। जिले में व्यक्तिगत एवं सहकारी क्षेत्र के 29 कस्टम हायरिंग केंद्र स्थापित हैं। जिनसे राजकिसान कस्टम हायरिंग एप के माध्यम से आनलाइन बुकिंग की जा सकती है।

सोनगरा वीर मामाजी के ध्वजारोहण महोत्सव में उमड़ा श्रद्धा का सैलाब

>> गुंजे जयकारे और भजनों की धुनों से महका वातावरण

जागरूक टाइम्स संवाददाता जसवंतपुरा। जीतपुरा मार्ग स्थित जवाड़िया बरे पर स्थित श्रद्धालुओं की आस्था के केंद्र सोनगरा वीर मामाजी मंदिर का बारहवां वार्षिकोत्सव और ध्वजारोहण महोत्सव धूमधाम से संपन्न हुआ। पुजारी पारसभाई प्रजापत के नेतृत्व में लाभार्थी परिवार द्वारा शुभ मुहूर्त में मंदिर के शिखर पर पारंपरिक ढोल-ढमाकों की गूंज के साथ विधिवत रूप से ध्वजा चढ़ाई गई। ध्वजारोहण के साथ ही मंदिर परिसर सोनगरा वीर मामाजी की जय के नारों से गुंज उठा। मंदिर को रंग-बिरंगी आकर्षक रोशनी से सजना गया था। मंदिर परिसर में महाप्रसादी का आयोजन हुआ। जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भाग लेकर भक्ति भाव से प्रसाद ग्रहण किया। रात्रि में आयोजित



भक्ति कार्यक्रम में कालंदी के मोहनदास वैष्णव एंड पार्टी ने भजनों की प्रस्तुतियां दी। यह आयोजन सिर्फ एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि सामाजिक एकता, संस्कृति और श्रद्धा का प्रतीक

नजर आया। जिसमें आसपास के गांवों और कस्बों से बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी निभाई, जो इस बात का प्रमाण है कि सोनगरा वीर मामाजी में जन-जन की गरी आस्था आस्था है।

नैतिक मूल्यों का ह्रास होने से प्रभावित हो रहा समाज: सिंह

>> मीडियाकर्मियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का खुला सत्र

जागरूक टाइम्स संवाददाता माउंट आबू। वैश्विक शांति व सदभाव के अग्रदूत के रूप में मीडिया की भूमिका विषय को लेकर ज्ञान सरोवर अकादमी परिसर में चार दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। उत्तराखंड मुख्यमंत्री के मीडिया

सलाहकार डॉ गोविंदसिंह ने कहा कि नैतिक मूल्यों के सत्य शब्दों का अर्थह्रास होने से समाज का बहुत बड़ा हिस्सा प्रभावित हो रहा है। ज्ञान सरोवर निदेशिका बीके प्रभा ने मीडियाकर्मियों को कलम की ताकत का महत्व बताते हुए अध्यात्मिकता को जीवन में अंगीकार

कर कर्म क्षेत्र में सत्यनिष्ठा व सेवाभाव बनाए रखने पर बल दिया। माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय की वरिष्ठ प्रोफेसर ऊर्वशी परमार ने कहा कि नैतिकता हमारे चरित्र व व्यवहार का एक हिस्सा है। प्रसार भारती डीडी न्यूज संपादक उमानाथसिंह ने कहा कि मीडियाकर्मियों समाज के हर तबके से जुड़ा होता है जिसे समाज के विभिन्न वर्गों की

नैतिकता का संतुलन रखते हुए जवाबदेही तय करनी होती है। महाराष्ट्र दैनिक देशमुख के एडिटर राजेश राजौर, नोएडा के बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज एडिटर आशुतोष ओझा, भोपाल के एक न्यूज चैनल की डायरेक्टर व एडिटर शेफाली गुप्ता, प्रभाग के राष्ट्रीय संयोजक बीके सुशांत, ज्ञानामृत पत्रिका की सहायक एडिटर बीके उर्मिला ने भी विचार व्यक्त किए।

पैनोरमा से वीर वीरमदेव एवं कान्हड़देव के इतिहास एवं शौर्य का होगा दीर्घदर्शन : लखावत



जागरूक टाइम्स संवाददाता

जालोर। राजस्थान धरोहर प्राधिकरण अध्यक्ष ओंकारसिंह लखावत ने शनिवार को जिला मुख्यालय पर पीएम राजकीय उच्च माध्यमिक जालोर परिसर में वीरमदेव कान्हड़देव चौहान पैनोरमा के लिए आवंटित भूमि स्थल पर शुरू हुए निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। लखावत ने वीरमदेव कान्हड़देव पैनोरमा के संबंध में संबंधित फर्म को शीघ्र निर्माण कार्य गुणवत्ता के

साथ एवं समय पर पूर्ण करने के लिए निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि जिला मुख्यालय पर लगभग चार करोड़ लागत से वीर वीरमदेव कान्हड़देव चौहान पैनोरमा का निर्माण किया जाएगा। पैनोरमा में वीरमदेव तथा कान्हड़देव के इतिहास एवं शौर्य की गाथा को दर्शाया जाएगा साथ ही जालोर के इतिहास को भी पैनोरमा के माध्यम से जन-जन तक पहुंचाया जाएगा। पैनोरमा में जालोर की ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विरासत

की झलक भी देखने को मिलेगी। उन्होंने बताया कि निर्माण कार्य प्रारंभ किया जा चुका है तथा नींव में पानी की समस्या के निदान के लिए जयपुर से आए विशेषज्ञ इंजिनियरों द्वारा अप्रुव्ड डिजाइन के अनुरूप निर्माण करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्कूली पाठ्यक्रम में वीर वीरमदेव के योगदान एवं मूल्यों को पढ़ाए जाने की आवश्यकता है। जिससे आने वाली पीढ़ी उनके योगदान को याद रखें।

>>> राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के अध्यक्ष ने पैनोरमा निर्माण का किया निरीक्षण

>>> 4 करोड़ की लागत से बनेगा वीरमदेव कान्हड़देव चौहान पैनोरमा



कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए पारस घांठी


जागरूक टाइम्स संवाददाता भीनमाल। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता भीनमाल निवासी पारस घांठी ने शनिवार को भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़, मुख्य सचिवत जोगेश्वर गर्ग, सांसद लुंबाराम चौधरी, आहोर् विधायक छगनसिंह राजपुरोहित व रानीवाड़ा के पूर्व विधायक नारायणसिंह देवल की मौजूदगी में भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली। घांठी को भाजपा नेताओं द्वारा भाजपा का दुपट्टा पहनाकर स्वागत करते हुए पार्टी में शामिल किया गया। निस्टवर्ती बागरा गांव में शनिवार को आयोजित प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों से प्रभावित होकर भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पर बड़ी संख्या में घांठी समाज के गणमान्य लोग मौजूद थे। ज्ञातव्य है कि पारस घांठी की पुत्रवधु भावना घांठी भीनमाल नगरपालिका में कांग्रेस पार्टी से गत चुनाव में पार्षद चुनी गई थीं।

सहायता दिवस के रूप में मनाया गहलोट का जन्मदिन



जागरूक टाइम्स संवाददाता आबूरोड। कांग्रेस कार्यकर्ता एवं पदाधिकारियों की ओर से शनिवार को पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जन्मदिन सहायता दिवस के रूप में मनाया गया। पीसीसी सदस्य अमित जोशी ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जन्मदिन पर राज्य सभा सांसद नीरज जो डांगी के निर्देश पर यह निर्णय लिया गया। इस पर कार्यकर्ता एवं पदाधिकारियों ने आदिवासी महिलाओं, मजदूर, गरीबजनों और छोटे बच्चों को भोजन और मिठाई वितरित की गई। जिला अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हाजी वजीर, पटान महामंत्री नूर मोहम्मद, सेवादल

कांग्रेस अध्यक्ष जसराज मेघवाल, पार्षद सुमित जोशी, सुनील खोत, दिनेश मेघवाल, अर्जुन जोशी, नीलोफर बानो, पूर्व नेता प्रतिपक्ष जेपीसिंह, पूर्व वार्ड पंच रणवीरसिंह राठौर, युथ कांग्रेस के हैदर पटान, राहुल बारोट, हरिओम शर्मा, दिलीप शर्मा, पूर्व पार्षद असलम मोहम्मद सेनी समाज के अध्यक्ष राजू सेनी ने बेजुबान पक्षियों के लिए परिंडे लगाया तथा गांवों को चारा खिलाया। निखिल जोशी, सुनील खोत, हुसैन खान, लक्ष्मीकांत चौहान, गजेंद्र काग, निजाम खान, राहुल बारोट, पूर्व सरपंच अम्मराराम, उप सरपंच मुकेश कुमार, हीरसिंह इंद, नारायण पहिरार आदि मौजूद थे।



कोलकाता। गत वैपिनयन कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) रविवार को जब राजस्थान रॉयल्स का सामना करेगा तो उसका लक्ष्य जीत हासिल करके प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीद को जीवंत रखना होगा। केकेआर को लीग स्टेज में चार और मैच खेलने हैं और प्लेऑफ के लिए उसका समीकरण सीधा है। चारों मैच जीत कर 17 अंक तक पहुंचना। इससे वह अंतिम चार में पहुंचने के लिए अगर मगर से बच जाएगा। कागजी पर यह आंकड़ा भले ही सीधा नजर आता है लेकिन वास्तविकता में यह काफी मुश्किल है।

तो केकेआर की बड़ेगी मुश्किलें

कोलकाता अगर यहां से कोई मैच हारता है तो उनकी गाड़ी 15 अंकों पर ही अटक जाएगी, इसके बाद उन्हें दूसरी टीमों के रिजल्ट पर निर्भर रहना होगा। केकेआर की बड़ी चिंता घरेलू मैदान पर उनका खराब प्रदर्शन है। इंडन गार्डन्स कभी उनका गढ़ हुआ करता था, लेकिन इस बार उसने अभी तक पांच मैचों में से केवल एक जीत हासिल की है जबकि पंजाब किंग्स के खिलाफ पिछला मैच बारिश के कारण पुरा नहीं हो पाया था और दोनों टीमों को एक-एक अंक मिला था।

केकेआर के स्पिनर नाकाम

केकेआर के स्पिनर यहां की असमान उछाल से सामंजस्य से बिठाने में नाकाम रहे हैं जबकि उसके बल्लेबाज भी अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं। उसकी बल्लेबाजी में आक्रमकता की कमी दिख रही है जिसके दम पर उसकी टीम ने पिछले साल खिताब जीता था। पिछले सत्र में सुर्खियां बटोरने वाले फिनिशर रिकू सिंह आठ पारियों में सिर्फ 16.9 रन बना पाए हैं जबकि सलामी बल्लेबाज क्विंटन डी कोक ने सात पारियों में 137.50 के स्ट्राइक रेट से 143 रन बनाए हैं। उनके प्रदर्शन में निरंतरता का अभाव है।

केकेआर पर भी बाहर होने का खतरा

प्लेऑफ का समीकरण बिगाड़ सकता है आरआर

चेन्नई से होगा सामना

केकेआर को इन चार मैच में से दो मैच घरेलू मैदान पर खेलने हैं। वह रविवार को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ खेलने के बाद बुधवार को चेन्नई सुपर किंग्स का सामना करेगा। इसके अलावा उसे 10 मई को सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (17 मई) के खिलाफ उनके मैदान पर मैच खेलने हैं।

फॉर्म में बेंगलुरु

सनराइजर्स की टीम अपना उत्साह खो चुकी है लेकिन बेंगलुरु की टीम शानदार फॉर्म में चल रही है। केकेआर को अभी अपना ध्यान घरेलू मैदान पर होने वाले दो मैच पर केंद्रित करना होगा। राजस्थान और चेन्नई की टीम प्लेऑफ की दौड़ से लगभग बाहर हो चुकी हैं। ऐसे में वे बिना किसी दबाव के मैदान पर उतरेंगी।

रहाणे के भरोसे केकेआर

केकेआर को सबसे ज्यादा निराश वेकेंटर अय्यर ने किया है जिन्हें इस फ्रेंचाइजी ने 23.75 करोड़ रुपए में खरीद कर उप कप्तान नियुक्त किया था। वेकेंटर ने 10 मैचों में केवल 142 रन बनाए हैं। कप्तान अजिंक्य रहाणे सत्र में केकेआर के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज रहे हैं, लेकिन वह फील्डिंग के दौरान हाथ में लगी चोट से जूझ रहे हैं। उन्होंने कहा, "मैं ठीक हूँ। मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहा हूँ और उम्मीद है कि मैं रविवार को मैच खेलूंगा।"

राजस्थान का निराशाजनक प्रदर्शन

राजस्थान रॉयल्स का अभी तक निराशाजनक प्रदर्शन रहा है। उसकी टीम ने अपने पिछले सात मैचों में केवल एक जीत हासिल की है जिससे उसकी नीलामी के दौरान अपनाई गई रणनीति की खामियां भी उजागर हो गई हैं। आईपीएल की नई संसदनी 14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ने 35 गेंद पर शतक लगाकर अपनी तरफ खींचा था लेकिन उनसे हर समय इसी तरह के प्रदर्शन की उम्मीद नहीं की जा सकती है।

सचिन तेंदुलकर को छोड़ा पीछे

अपनी पारी के दौरान, सुदर्शन ने कई उपलब्धियां हासिल कीं और ऑरेंज कैप हासिल करके रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज करा लिया। सुदर्शन ने मैच में टी20 क्रिकेट में अपने 2000 रन पूरे किए और सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ा। सुदर्शन ने आईपीएल में 1500 रन और टी20 क्रिकेट में 2000 रन पूरे किए। दोनों ही उपलब्धियों के जरिए उन्होंने रिकॉर्ड बनाए। सुदर्शन आईपीएल इतिहास में सबसे तेज 1500 रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं और उन्होंने शॉन मार्श का लंबे समय से चला आ रहा रिकॉर्ड तोड़ डाला।



टॉप की तगड़ी लड़ाई

प्लेऑफ की रेस दिलचस्प, सीएसके और आरआर के बाद अगला कौन

नई दिल्ली। आईपीएल 2025 की लीग स्टेज में 19 मुकाबले अब बाकी रहते हैं। अब प्लेऑफ की रेस दिलचस्प हो गई है। सीएसके और राजस्थान का सफर समाप्त हो चुका है। अब 8 टीमों के बीच टॉप-4 में पहुंचने की जंग जारी है। शुक्रवार को सनराइजर्स हैदराबाद बनाम गुजरात टाइटंस के बीच खेले गए मैच में हैदराबाद को 38 रन से हार का सामना करना पड़ा। हार के बाद हैदराबाद की टीम लगभग आईपीएल से बाहर हो गई है।

आरसीबी

कितने मैच बचे- 4 मैच (बनाम सीएसके, बनाम लखनऊ, बनाम हैदराबाद, बनाम कोलकाता)

आरसीबी को अपने लीग स्टेज में अभी 4 मैच खेलने हैं, जिसमें से तीन मैच उसे होम ग्राउंड में खेलने हैं। आरसीबी की टीम को प्लेऑफ में पहुंचने के लिए कम से कम दो मैच जीतने होंगे, ताकि उसका अंक 18 हो जाए।

पंजाब किंग्स

कितने मैच बाकी- 4 मैच (बनाम लखनऊ, बनाम दिल्ली, बनाम मुंबई, बनाम राजस्थान)

पंजाब को अभी 4 मैच खेलने हैं, जिसमें उनका सामना लखनऊ, दिल्ली कैपिटल्स, मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स से होगा है। पंजाब को प्लेऑफ में पहुंचने के लिए अपने बाकी मैच में से दो मैच कम से कम जीतने होंगे।

दिल्ली कैपिटल्स

कितने मैच बाकी- 4 (बनाम हैदराबाद, बनाम गुजरात, बनाम मुंबई)

दिल्ली कैपिटल्स की टीम का आगामी मैचों में टॉप-4 की टीमों से सामना है। दिल्ली की टीम को प्लेऑफ में पहुंचने के लिए कम से कम तीन मैच में जीत हासिल करनी होगी। वहीं 20 अंक के लिए उसे अपने बचे हुए चारों मैच में जीत दर्ज करनी होगी।



मुंबई इंडियंस

कितने मैच बाकी- 3 (बनाम गुजरात टाइटंस, बनाम दिल्ली कैपिटल्स)

मुंबई की टीम मौजूदा समय में अंक तालिका पर नंबर-1 पर मौजूद है। मुंबई की टीम को अब बाकी बचे हुए मैच में से कम से कम दो मैच जीतने होंगे। अभी उसके पास 14 अंक हैं और वह 11 में से 7 मैच में जीत हासिल कर चुकी है।

गुजरात टाइटंस

कितने मैच बाकी- 4 मैच (बनाम मुंबई, बनाम दिल्ली, बनाम लखनऊ, बनाम सीएसके)

गुजरात टाइटंस की टीम ने अंक तालिका में दूसरा स्थान पर है। गुजरात अपने बाकी बचे मैच में जीत हासिल कर 20 अंक हासिल करना चाहेगी। अगर गुजरात की बाकी बचे 4 मैच में जीत जाती है तो वह नंबर-1 और 22 अंक हासिल कर लेगी।

एशिया कप पर संकट के बादल

पाकिस्तान को एशिया कप का हिस्सा बनते नहीं देख सकता : गावस्कर

नई दिल्ली। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते राजनीतिक तनाव के बीच एशियाई क्रिकेट परिषद भंग हो सकती है। बता दें कि भारत इस साल एशिया कप के लिए श्रीलंका के साथ सह-मेजबान है। हालांकि अभी एशिया कप के आयोजन की तारीखों और वेन्यू की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन हाल ही में एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत और

पाकिस्तान के बीच तनाव के कारण इस साल एशिया कप नहीं होगा। वहीं, दूसरी ओर सुनील गावस्कर ने भी पाकिस्तान को लेकर बयान दिया है और कहा कि "यदि एशिया कप का आयोजन हो तो पाकिस्तान को इससे बाहर कर देना चाहिए"। सुनील गावस्कर ने माना कि आतंकी हमले के बाद वह पाकिस्तान को एशिया कप में हिस्सा लेते नहीं देख सकते। भारत और श्रीलंका इस साल के अंत में टूर्नामेंट की मेजबानी करने वाले थे।



पूर्व ऑस्ट्रेलियाई विकेटकीपर का दावा

बुमराह दूसरा 'सर डॉन ब्रैडमैन'

नई दिल्ली। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई एडम गिलक्रिस्ट ने सचिन तेंदुलकर और कोहली को नहीं बल्कि गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को गेंदबाजी का 'सर डॉन ब्रैडमैन' करार दे दिया है। गिलक्रिस्ट ने दावा किया कि वह 2024-25 बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बुमराह को देखकर दंग रह गए और उन्हें अब तक का सबसे महान तेज गेंदबाज मानते हैं। गिलक्रिस्ट ने कहा, "बुमराह शायद अब तक के सबसे अच्छे गेंदबाज रहे हैं। जब आप आंकड़ों और अलग-अलग परिस्थितियों को देखते हैं, जिसमें उसने अपने कंकट से बाहर जाकर अपने कौशल का प्रदर्शन किया है तो मुझे लगता है कि सर डॉन ब्रैडमैन ने भी वैसे कारनामा अपने करियर में किया।



मनोरंजन

अवनीत कौर की फोटो को कोहली ने किया लाइक!

बी-टाउन की एक्ट्रेस अवनीत कौर, जिनकी तस्वीर को भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली ने गलती से लाइक कर दिया था, सोशल मीडिया और सोप ओपेरा में सालों से फेमस हैं। जब से वह एक बच्ची थीं, अवनीत कौर भारतीय टेलीविजन के लिए काम कर रही हैं और हाल ही में कान्स फिल्म फेस्टिवल 2024 में भी नजर आईं। 23 वर्षीय एक्ट्रेस ने 2010 में एक परफॉर्मिंग आर्ट्स रियलिटी शो, "डॉस इंडिया डॉस लिटिल मार्स्टर्स" के जरिए टेलीविजन पर शुरुआत की थी। इसके कुछ समय बाद अवनीत कौर ने 2012 में 'मेरी मां' से एक्टिंग की शुरुआत की और तब से वह एक सनसनी बनी हुई हैं। उनके बाकी प्रोजेक्ट्स, जिनसे उन्होंने दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया, वे हैं 'सावित्री एक प्रेम कहानी' (2013) और 'एक मुट्ठी आसमान' (2013)। अवनीत



दिग्गज फिल्ममेकर शेखर कपूर ने कहा है कि उन्हें अपनी फिल्मों के लिए अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान जैसे एक्टर की जरूरत नहीं है क्योंकि वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का उपयोग करके अपना खुद का किरदार और स्टार बनाएंगे। उन्होंने कहा कि आगे चलकर 'एआई इंसानों' जैसे और भी सितारे बनाएंगे। शेखर कपूर ने बताया कि कैसे एआई सिर्फ एक्टर ही नहीं बल्कि स्टार्स भी बना सकता है। उन्होंने कहा, 'एक्टर सिर्फ एक्टर ही रहेंगे, क्योंकि एआईआगे चलकर स्टार्स बनाएंगे। एआई ज्यादातर इंसानों जैसे स्टार्स बनाएंगे। और मैं एआई का इस्तेमाल करके एक स्टार बना सकता हूँ और उसका कॉपीराइट मेरे पास होगा। और बहुत जल्द ही एआई फ़िल्मों के कई विचार सामने आएंगे, जिनमें एक लड़की या लड़का या पुरुष या महिला होगी जिसे मैंने एआई का इस्तेमाल करके बनाया है और वह मेरा कॉपीराइट होगा।' शेखर ने बताया कि उन्हें क्यों लगता है कि फिल्म बनाने के लिए उन्हें अमिताभ या शाहरुख खान की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा, 'अब यह ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है। आप जो बहुत से प्रभावशाली लोग देखते हैं, वे इंसान नहीं हैं। उन्हें एआई ने बनाया है। तो हम ऐसी फिल्में क्यों नहीं बना सकते जिनमें ऐसे एक्टर हों, ऐसे किरदार हों जो एआई पर बने होने के कारण स्टार बन गए हों? मुझे अमिताभ बच्चन की जरूरत नहीं है। मैं अपना किरदार खुद बना लूंगा। मुझे शाहरुख खान की जरूरत नहीं है, मैं अपना किरदार खुद बना लूंगा।

‘अमिताभ -शाहरुख की जरूरत नहीं’

अपना स्टार एआई से बनाऊंगा : शेखर कपूर

एक्ट्रेस चित्रांगदा सिंह अपने फैशनबल अंदाज के लिए जानी जाती हैं। उनका ग्लैमरस अंदाज लोगों को काफी अट्रैक्ट करता है। चित्रांगदा बाजार, गैसलाइट, देसी बॉयज और जोकर जैसी फिल्मों में नजर आ चुकी हैं। उनका स्टाइल और देसी अंदाज हमेशा ही वायरल रहता है। एक्ट्रेस ने हाल ही में कुछ तस्वीरों पोस्ट की हैं जिसमें वो ब्लैक कलर की स्ट्रेपलेस डीपनेक ड्रेस में नजर आ रही हैं। वेलोर फैब्रिक से बनी स्ट्रेपलेस ब्लैक ड्रेस में कोरसेट स्टाइल स्वीटहार्ट नेकलाइन है, जिसमें एक बोल्ट लो प्लॉजिंग डिज़ाइन बना हुआ है, जिसे सिल्वर मेटेलिक पाइप-स्टाइल थ्रेड से जोड़ा गया है। इस परिधान की नेकलाइन एक स्ट्रिंग से सजी हुई है और ड्रेस का कपड़ा मखमली सा है। इस बॉडी हिंगिंग एंकल-लेथ ड्रेस में एक्ट्रेस के बॉडी कर्व्स काफी साफ़ी नजर आ रहे थे। इससे पहले चित्रांगदा सिंह ने थाई-हाई स्लिट वाली ब्लैक ड्रेस में लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा और फैस के दिलों को जीत लिया। चित्रांगदा ने प्रिंसेस पॉली वुटीक लेबल और एक गहरी वी-नेकलाइन के साथ एक स्लीवलेस ब्लैक आउटफिट पहना था। स्टेटमेंट आउटफिट में एक हाई-लो हेमलाइन और एक थाई-हाई स्लिट थी जो उसके टोंड पैरों को शानदार लुक दे रही थी। इतना ही नहीं, उसके ओओटीडी में फ्लोरल एप्लिक से सजी एक सिंगल-शोल्डर केप भी शामिल थी। चित्रांगदा ने अपने लुक को न्यूड होल्स, टाई-अप-स्टाइल स्वारेवस्की थ्रेड क्लोजर और डायमंड-एनक्रस्टेड डैंगलर इयररिंग्स के साथ पूरा किया। मेकअप के लिए, अभिनेत्री ने ब्रोंड लुक अपनाया, जिसे स्मोकी, सिल्वर-ग्रे आंखों, गालों पर बेरी-टोन्ड ब्लश और न्यूड ब्राउन लिप ग्लॉस ने उनके पावर-ड्रेसिंग मोमेंट को परफेक्ट फिनिश दिया। बता दें कि चित्रांगदा सिंह आने वाले समय में फिल्म हाउसफुल 5 में नजर आएंगी। इस फिल्म में उनके साथ अक्षय कुमार और अन्य 18 एक्टरस नजर आएंगे। फिल्म में कुल 5 हीरोइनें हैं।



ब्लैक ड्रेस में चित्रांगदा का कहर

कानूनी पचड़े में फंसे एजाज

शो में अश्लील कंटेंट दिखाने का आरोप



एजाज खान के नये शो हाउस अरेस्ट पर खूब बवाल मचा हुआ है। शो पर अश्लीलता दिखाने का आरोप लगा है। सोशल मीडिया पर इसकी कुछ क्लिप वायरल हुईं थी जिसके बाद हंगामा मच गया। शो को बंद करने की मांग की। हंगामे के बीच शो को उल्लू ऐप से हटा दिया गया है। लेकिन एजाज खान की मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। उनके खिलाफ अब केस दर्ज किया गया है। बता दें कि मुंबई पुलिस ने शुक्रवार को एजाज खान के साथ ही निर्माता राजकुमार पांडे सहित कई के खिलाफ उल्लू ऐप पर स्ट्रीम होने वाले उनके वेब शो "हाउस अरेस्ट" में अश्लील कंटेंट दिखाने के आरोप में केस दर्ज किया। रिपोर्ट के मुताबित अंबोली पुलिस थाने के अधिकारी ने बताया, "राइटिंग कार्यकर्ता गौतम रावरीया की शिकायत के आधार पर पुलिस ने अभिनेता एजाज खान, 'हाउस अरेस्ट' वेब शो के निर्माता राजकुमार पांडे और उल्लू ऐप के अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।"

पंचायत 4 का टीजर रिलीज

प्राइम वीडियो ने वेब सीरीज पंचायत सीजन 4 की पहली झलक पेश की। यह खास टीजर वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट (वेक्स) के उद्घाटन समारोह में लॉन्च किया गया, जिसने दर्शकों के बीच जबरदस्त उत्साह और उत्सुकता जगा दी है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा आयोजित वेक्स ऐप अनुल इवेंट है, जो मनोरंजन जगत में क्रिएटिविटी और इनोवेशन का जश्न मनाता है। इस समिट में अलग-अलग क्षेत्रों से कलाकारों, क्रिएटर्स और इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स को एक साथ लाया जाता है, जिससे कला और मनोरंजन की दुनिया को एक नया मंच मिलता है। 'द मेकिंग ऑफ पंचायत: ग्रासरूट स्टोरीटेलिंग' पर एक दिलचस्प पैनल डिस्कशन ने दर्शकों को शो की रचनात्मक यात्रा के पीछे की झलक दी। इस बातचीत के दौरान यह बताया गया कि कैसे पंचायत जैसी सीरीज ने दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई। चर्चा के अंत में सीजन 4 का फर्स्ट लुक टीजर खास तौर पर लॉन्च किया गया। चर्चा में पंचायत के लीड कलाकार जितेंद्र कुमार, रघुवीर यादव और सुनीता राजवार के साथ डायरेक्टर दीपक कुमार मिश्रा और लेखक चंदन कुमार मौजूद रहे। बातचीत को प्राइम वीडियो इंडिया के कंटेंट लाइसेंसिंग डायरेक्टर मनीष मेघानी ने होस्ट किया। इस दौरान सभी ने बताया कि कैसे गांव की सादगी, असली भावनाएं और जमीन से जुड़ी कहानियां पंचायत को खास बनाती हैं। प्राइम वीडियो इंडिया के कंटेंट लाइसेंसिंग डायरेक्टर मनीष मेघानी ने कहा, 'हमें खुशी है कि हमें वेक्स जैसे खास इवेंट में 'पंचायत' के नए सीजन का फर्स्ट लुक टीजर दिखाने और पूरी टीम के साथ एक शानदार पैनल डिस्कशन करने का मौका मिला। वेक्स जैसे इवेंट भारतीय एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की असली और दमदार आवाजों को सेलिब्रेट करते हैं। हमेशा से प्राइम वीडियो में हमें यह विश्वास रहा है कि अपनी कहानियां जो बताई जाती हैं जड़ों से जुड़ी सच्चाई से हैं।



आज पांच सेंटरों पर सीसीटीवी की निगरानी में होगी नीट यूजी परीक्षा

एडीएम डॉ सापेला एवं एसपी धनिया रहेंगे नोडल अधिकारी

जागरूक टाइम्स संवाददाता सिरोही। देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2025 रविवार को होगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) द्वारा आयोजित इस परीक्षा में इस बार 1433 छात्र-छात्राएं हिस्सा लेंगे। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगी। परीक्षा में धांधली रोकने के लिए सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम के किए हैं। जिले में 5 केंद्रों पर इस परीक्षा का आयोजन होगा। इसके सफल आयोजन को लेकर शनिवार को राजकीय कला महाविद्यालय में अतिरिक्त जिला कलेक्टर डॉ दिनेश राय सापेला की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया।



प्रशासन नोडल अधिकारी एडीएम डॉ सापेला तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रभुदयाल धनिया नोडल अधिकारी पुलिस ने परीक्षार्थियों की बैठक व्यवस्था, सीसीटीवी निगरानी, नियंत्रण कक्ष, पेयजल व्यवस्था व सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी लेकर व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने, सफल एवं शांतिपूर्ण तथा निष्पक्ष आयोजन के लिए निर्देश प्रदान किए। एनटीए सिटी कार्डिनेटर ओमप्रकाश जाखड़ द्वारा परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की गड़बड़ी से बचने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम केंद्रों पर पुलिस बल की तैनाती और केंद्रों पर चेकिंग समेत अन्य परीक्षाओं की सम्पूर्ण जानकारी दी। बैठक में कॉलेज प्राचार्य अजय शर्मा, शिक्षा विभाग के

व्यवस्थाएं चाक चौबंद
नीट परीक्षा को शांतिपूर्ण कराने के लिए प्रशासन अलर्ट है। व्यवस्थाएं चाक चौबंद की गईं। विद्यार्थी भी बेहतर माहौल में परीक्षा देंगे। परीक्षा में शुचिता बनाए रखने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं।
डॉ दिनेशराय सापेला एडीएम सिरोही
सहायक निदेशक अजय माथुर सहित सभी परीक्षा केंद्रों के केंद्रभिक्षक व पर्यवेक्षक उपस्थित थे।

वाहन स्वामियों के मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए विशेष अभियान शुरू

जागरूक टाइम्स संवाददाता सिरोही। परिवहन विभाग की ओर से पंजीकृत सभी वाहनों के स्वामियों के मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जिला परिवहन अधिकारी आरपी वैष्णव ने बताया कि वाहन मालिक अपने वाहन की आरसी आइडी एवं मोबाइल नंबर के साथ परिवहन कार्यालय में उपस्थित होकर अपना आवेदन प्रस्तुत कर वाहन में मोबाइल नंबर अपडेट करवा सकता है या सीटीजन पोर्टल पर भी वाहन स्वामियों के लिए ओएशन है कि वे अपना आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर वाहन पोर्टल पर अपडेट कर सकते हैं।

बायोडीजल के नाम पर अवैध डीजल बिक्री, नहीं हो रही कार्रवाई

जागरूक टाइम्स संवाददाता शिवगंज। वैरा रामपुरा के पास एक माह पहले सीएमओ से मिली शिकायत के आधार पर रसद विभाग ने जिस बायो डीजल पंप की जांच की थी, वहां प्रथमदृष्ट्या जांच के दौरान बायो डीजल की आड़ में अवैध रूप से डीजल पंप के संचालन का संदेह जताने के बावजूद अग्रिम कार्रवाई नहीं हुई। रसद विभाग पंप की सीजिंग कार्रवाई से कतरा रहा है। जानकारी के अनुसार वैरा रामपुरा के समीप एक फ्यूल स्टेशन पम्प पर लंबे समय से बायो डीजल पंप की आड़ में अवैध रूप से डीजल पंप का संचालन करने की शिकायत थी। शिकायत के बावजूद विभाग की ओर से कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। तब इसकी शिकायत सीएमओ में होने के बाद वहां से जांच के निर्देश मिले। 1 अप्रैल को रसद विभाग की टीम ने पुलिस के साथ पहुंचकर जांच की।



जांच में मिले डीजल बेचने के सबूत, की गई फौरी कार्रवाई
प्रवर्तन अधिकारी विनोद कुमार परमार के साथ मौके पर पहुंची टीम ने पंप पर मौजूद कार्मिकों से पंप से संबंधित कागजात मांगे तो वह टीम को उपलब्ध नहीं करवाए गए। मौके पर पंप संचालक भी नहीं मिला। विभाग ने जांच के दौरान जो नमूने लिए, उनकी डेसिटी भी डीजल के बराबर पाई गई।
डीजल बेचने की जताई आशंका
जांच के दौरान प्रवर्तन अधिकारी ने अवैध रूप से डीजल बेचने की आशंका जताई थी। जांच के समय भूमिगत टैंक में दस हजार लीटर पेट्रोलियम पदार्थ मौजूद था। जिसे विभाग ने जब्त कर उसके नमूने भी लिए थे।

टैंक सीज किया, पंप नहीं
जांच के बाद विभाग ने कार्रवाई के नाम पर वह टैंक जिसमें पेट्रोलियम पदार्थ था उसे सीज कर दिया, मगर पंप को सीज नहीं किया गया। इस कार्रवाई को एक माह हो गया, लेकिन विभाग ने अग्रिम कार्रवाई को लेकर चुप्पी साध रखी है। इसमें राजनीतिक दबाव की भी चर्चा है।
कार्रवाई जारी है
जांच के दौरान मौके पर मालिक नहीं मिला, कागज भी नहीं थे। संदेह के आधार पर टैंक सीज किया गया था। उसके बाद में अवकाश पर चला गया था। इस वजह से पंप सीज नहीं हो पाया। अब जल्द ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।
विनोद परमार
प्रवर्तन अधिकारी-रसद विभाग सिरोही

एटीएम में परीक्षा परिणाम घोषित, विद्यार्थियों का किया सम्मान



जागरूक टाइम्स संवाददाता सिरोही। आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक सिरोही का वार्षिक परीक्षा परिणाम शुरुकार को जारी किया। परिणाम में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का सम्मान किया गया। शिक्षक कालूराम ने सभी का परिचय करवाया। प्रधानाचार्य

राजेश त्रिवेदी ने बताया कि विद्या मंदिर का परीक्षा परिणाम शत प्रतिशत रहा। उन्होंने बताया कि विद्यालय में शिक्षण के साथ छात्र के सर्वांगीण विकास के लिए विभिन्न गतिविधियां संचालित की जाती है। उन्होंने कहा कि जिले में 40 से अधिक आदर्श विद्या मंदिर में सोलह हजार से अधिक विद्यार्थी शिक्षण प्राप्त

करते हैं। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अधिवक्ता देवेंद्र डांगी, समाजसेवी संजय कुमार वर्मा, डिस्कॉम के अधिकांशी अभियंता इन्द्रदान धारण, गरिमा चारण, मीनल चौहान, रामेश्वरी विश्वा, डा. भवानी वैष्णव, ऋतिक परिहार, उत्तम पटेल उपस्थित थे। परीक्षा परिणाम परीक्षा प्रभारी कालूराम ने घोषित किया।

हर्षोल्लास से मनाया यूनियन का 78वां स्थापना दिवस

जागरूक टाइम्स संवाददाता जेकेपुरम। जेके लक्ष्मी के मुख्य द्वार पर शनिवार को इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस (ईटक) यूनियन का आज 78 वां स्थापना दिवस ध्वजारोहण कर हर्षोल्लास से मनाया। राष्ट्रीय संगठन मंत्री इंद्रसिंह देवड़ा के नेतृत्व में ईटक का झंडा फहराया गया। राष्ट्रीय संगठन मंत्री देवड़ा सभी कार्यकर्ताओं को स्थापना दिवस शुभकामनाएं दी और मजदूर वह कर्मचारियों के हितों की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए ईटक यूनियन को और मजबूत बनाने का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि ईटक की स्थापना 3 मई 1947 सरदार वल्लभभाई पटेल ने की थी। ईटक यूनियन के कार्यकर्ता रामाराम, हरियाराम,



ऋषिराजसिंह, गोविंद, उत्तमसिंह, सरवन, अभयसिंह, भीमसिंह, नरेंद्रसिंह, उमोदसिंह, भंवरसिंह, विनोद, रुपाराम, लक्ष्मण, देवाराम, चेलाराम, कालूराम, मीठालाल, विनेश, भंवरलाल, मोहनलाल, आनंदसिंह, महावीरसिंह, प्रभुसिंह, मंगाराम, कृष्णपालसिंह, दशरथसिंह, पुराराम, भाणाराम, कन्हैयालाल, नैतीराम, भंवर एवं सुरेश सहित सभी ईटक कार्यकर्ता मौजूद थे।

चारे के लिए गोशाला में भेंट किए एक लाख इक्कीस हजार रुपए

जागरूक टाइम्स संवाददाता सरुगंज। रोहिड़ा रोड स्थित काशी विश्वनाथ गोशाला में शनिवार को भामाशाह की ओर से एक लाख इक्कीस हजार रुपए चारे के लिए भेंट किया गया। रोहिड़ा के नवीन कुमार पुत्र सीताराम रावल के गृह प्रवेश दौरान सुंदर काण्ड पाठ का आयोजन किया गया। जिसके निमित्त गोशाला में एक लाख इक्कीस हजार रुपए चारे के लिए भेंट किए।

पाठ का वाचन श्री मारुती सुंदरकांड पाठ मंडल सरुगंज द्वारा किया गया। सुंदरकांड मंडल के लक्ष्मणसिंह गुजराल, गोशाला के अध्यक्ष लालदास महाराज, रवानाथ महाराज अजारी, नवीन रावल, विपुल रावल, रमेश रावल, भरत रावल, शिव नटराजन, कमलेश, मनीष, भरत, श्रवणसिंह, श्रवण अग्रवाल, बादल मोहंरेशा, पवन जोशी, हितेश प्रजापत सहित श्रोता मौजूद रहे।



जीणमाता के 28वें भक्ति महोत्सव में उमड़े श्रद्धालु

शोभायात्रा, चुनरी महोत्सव का आयोजन

जागरूक टाइम्स संवाददाता पोसालिया। खंडेलवाल समाज के नाटाणी कायथवाल गोत्र की कुलदेवी जीण माता मन्दिर का 28 वां भक्ति महोत्सव उमंग व उल्लास के साथ मनाया। कस्बे के मुख्य मार्गों से शोभायात्रा निकाली गई। खंडेलवाल जीण माता सेवा समिति पोसालिया ट्रस्ट मंडल के महामंत्री लोकाश खंडेलवाल ने बताया कि शुक्रवार को भजन संध्या के साथ दो दिवसीय मेले का शुभारंभ हुआ। रात्रि भजन संध्या में मिली उत्सव के लाभार्थी परिवार मूलचंद फूलचंद नाटाणी परिवार की ओर से सम्मान स्वागत किया गया। मंदिर व्यवस्था के वार्षिक चढ़ावे भी बोले गए। भजन गायक अंकुश गहलोत एवं गायिका नीता नायक ने देर रात्रि तक एक से बढ़कर एक मैया को रझाते हुए सुंदर रचनाएं पेश की। युवक युवतियों ने भजनों पर नृत्य कर अपनी भावनाओं का



इजहार किया। शनिवार को गाजे बाजों के साथ कुलदेवी जीण भवानी की शोभायात्रा निकाली गई। इस मौके पर चुनरी महोत्सव में 108 मीटर लंबी भक्तों ने माता के दरबार में चुनरी चढ़ाकर जयकारे लगाए। विजय अभिजित मुहूर्त में मंदिर पर वार्षिक ध्वजा चढ़ाई गई। महोत्सव के दौरान बड़ी संख्या में आसपास के गांवों सहित प्रवासी परिवारों ने भाग लिया।

ट्रस्ट के अध्यक्ष गुलाबचंद नाटाणी, उपाध्यक्ष मुल्लानमल, कांतिलाल, कोषाध्यक्ष ललित कायथवाल, सहमंत्री नंदकिशोर नाटाणी, बलवंत कुमार, केसरीमल, भभूमल, श्यामसुंदर, किरण कुमार, ललित कुमार, रमेश कुमार, मांगीलाल, विनोद कुमार सहित बड़ी संख्या में खंडेलवाल समाज के स्त्री पुरुष व बच्चे मौजूद रहे।

अम्बेमाता मंदिर का मनाया प्रतिष्ठ महोत्सव



जागरूक टाइम्स संवाददाता शिवगंज। पोयना गांव में अम्बेमाता मंदिर का प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया गया। समारोह में पूर्व विधायक संयम लोढ़ा ने कहा कि इसका को उसके कर्म के आधार पर स्वर्ग और नरक की अनुभूति इसी जन्म में होती है। आप जैसा कर्म करोगे उसी

आधार पर आपको उसका फल भी मिलेगा। कार्यक्रम में सुमेरपुर के पूर्व प्रधान हरिशंकर मेवाड़ा ने भी शिरकत की। लोढ़ा ने गांव के भामाशाहों के सहयोग से मां शक्ति के मंदिर निर्माण के लिए सभी का आधार व्यक्त किए। सुमेरपुर के पूर्व प्रधान मेवाड़ा ने भी संबोधित किया।

हनुमान मंदिर प्राण प्रतिष्ठ महोत्सव

कालन्दी। मेरमंडवाड़ा के रतनगढ़ में हनुमान मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि पूर्व विधायक संयम लोढ़ा ने कहा कि हनुमानजी को 8 सिद्धियां प्राप्त थी, उनका अंश हमें भी प्राप्त हो ऐसी मंगल कामना है। पवित्र मन में भगवान का निवास होता है। किसी को गुरु न मिले तो हनुमानजी को गुरु मान लें। वर्तमान समय में बच्चों को गोता पढ़ानी चाहिए। संत जीवनीगिरी, बालक गिरी, कपील गिरी, रामलाल माली, मोहन माली, सरपंच गुमानसिंह देवड़ा, किशोरसिंह, ईश्वर पुरोहित, पुनीत अग्रवाल आदि मौजूद थे।

शिकायत पर हुई कार्रवाई, यूआईटी ने हटवाया अतिक्रमण

जागरूक टाइम्स संवाददाता आबूरोड। तलहटी स्थित दानवाव विद्यालय के पास किए अतिक्रमण को यूआईटी ने हटवा लिया है। अतिक्रमण को लेकर भाजपा के पूर्व जिला मीडिया प्रभारी सतीश अग्रवाल ने शिकायत की थी। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए नगर सुधार न्यास आबू की टीम ने मौके पर जेसीबी लगाकर कॉलोनी विकासकर्ता द्वारा बेरिकेंडिंग कर टीन शेड लगाकर किए गए अवैध कब्जे एवं अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया है एवं इसी प्रकरण में नियम विरुध्द बिना आंतरिक विकास कार्य के जारी किए गए आरक्षित प्लॉट की जांच भी प्रारंभ कर दी है।



आरसेटी में दिया प्लंबर एंड सैनेटरी वर्क का प्रशिक्षण

जागरूक टाइम्स संवाददाता सिरोही। आरसेटी की ओर से प्लंबर एंड सैनेटरी वर्क के 30 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण का समापन शुक्रवार को किया गया। जिसमें सिरोही जिले के अलग अलग गांवों से बेरोजगार युवाओं ने भाग लिया। प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षणाधिकारियों ने प्लंबर कार्य एवं वाटर फिटिंग का काम सीखा। मूल्यांकन प्रमाणन अधिकारी गोपाल सिंह राठौड़ ने प्रशिक्षणाधिकारियों को प्रमाण पत्र व टूल-कीट प्रदान



किए। आरसेटी निदेशक कैलाश गहलोत ने बताया कि आरसेटी द्वारा 64 प्रकार के स्वरोजगार आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किये जाते हैं। आरसेटी से अनुदेशक पपीयाराम मीणा, प्रवीण कुमार, भंवरलाल, कैलाश माली व देवराज उपस्थित थे।

महात्मा गांधी विद्यालय में प्रवेश के लिए मांगे आवेदन

जागरूक टाइम्स संवाददाता रेवदर। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में शिक्षा सत्र 2025-26 के लिए विभागीय निर्देशानुसार कक्षा प्री-ग्राइमरी से कक्षा 8वीं तक अग्रेजी माध्यम में प्रवेश के लिए 7 मई से 15 जून 2025 तक ऑनलाइन आवेदन (शाला दर्पण / क्यू आर कोड के माध्यम से) स्वीकार किए जाएंगे। प्रधानाचार्य

ओमजी लाल शर्मा ने बताया कि 16 जून को आवेदनों की सूची एवं कक्षावार रक्तियों की सूचना नोटिस बोर्ड पर चप्पा की जाएगी। 17 को लॉटरी निकाली जाएगी। 18 को लॉटरी के माध्यम से चयनित विद्यार्थियों की सूची विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर चप्पा की जाएगी और 19 से प्रवेश कार्य शुरू किया जाएगा।

शिविर में की 43 मरीजों की जांच



जागरूक टाइम्स संवाददाता आबूरोड। जनजातीय स्वास्थ्य एवं अनुसंधान केंद्र टेली मेडिसिन सेंटर की ओर से शनिवार को मोरथला में डॉ. सचिन रेडियोलॉजिस्ट डॉ. हर्षिता ने ग्रामीणों का निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण किया। शिविर में 43 मरीजों के स्वास्थ्य जांच की।

चिकित्सीय दल ने लोगों को मौसमी बीमारियां एवं आयरन युक्त आहार स्वच्छता तथा दैनिक दांतों की साफ सफाई के बारे में जानकारी दी। एसटीएचआर टीम से रमेश कुमार, महेंद्र भाटी, गमराम, करनाराम तथा व स्वास्थ्यकर्मी सविता देवी एवं अनीता देवी का सहयोग रहा।

यज्ञ के साथ नवीन सत्र का शुभारंभ



जागरूक टाइम्स संवाददाता आबूरोड। गोविन्दानन्द आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक में शनिवार को नवीन सत्र का शुभारंभ यज्ञ से किया। महाराजश्री के सानिध्य में विद्या मंदिर के अभिभावकों और शिक्षकों ने यज्ञ में वैदिक मंत्रोच्चार से पवित्र आहुतियां व मिां सरस्वती की पूजा-अर्चना कर नवीन शिक्षा सत्र

2025-26 का शुभारंभ किया। प्रधानाचार्य दीपसिंह हर्षवाड़ा ने बताया कि गर्मी के मौसम के साथ ही एकाएक बढ़े तापमान को लेकर विद्या मंदिर में अध्ययनरत बालक-बालिकाओं से गर्मी से बचाव करने और घरों से धूप के समय बाहर नहीं निकलने की सलाह दी गई है। प्राथमिक भाग प्रभारी ललित रावल व विद्या मंदिर के आचार्यगण उपस्थित हुए।

सांस्कृतिक सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन



जागरूक टाइम्स संवाददाता आबूरोड। श्रीमती चन्द्रावल गुप्ता महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में समाजोपयोगी उत्पादक कार्य के तहत पाठ्य सहागी गतिविधियों के

साप्ताहिक कार्यक्रम के द्वितीय दिन रचनात्मक प्रतियोगिता में रंगोली रंगो से तथा खेल प्रतियोगिता सम्पन्न करवाई गई। मुख्य ट्रस्टी हरीश गुप्ता, प्राचार्या डॉ. अलका जैन आदि मौजूद थे।

होटल से देसी शराब बरामद

जागरूक टाइम्स संवाददाता सिरोही। आबकारी पुलिस ने विशेष अभियान के तहत एक कार्रवाई कर देसी शराब एवं वीयर जब्त की। आबकारी विभाग के अनुसारसहायक आबकारी अधिकारी बरासत अली एवं सिरोही आबकारी थाना के

प्रहराधिकारी लेखराज की संयुक्त गश्त के दौरान आशापुरा होटल पर आकस्मिक दबिश देकर तेलपुर निवासी ईश्वरसिंह पुत्र हरीसिंह के कच्चेशुदा एक प्लास्टिक कट्टे में 20 पक्वे देशी मदिरा सादा व 2 बीयर बोतल बरामद हुई।

राजमाता मंदिर का 25वां वार्षिकोत्सव मनाया



जागरूक टाइम्स संवाददाता शिवगंज। राजमाता सेवा समिति की ओर से माता मंदिर का 25वां वार्षिकोत्सव हर्षोल्लास से मनाया गया। महोत्सव को लेकर शोभायात्रा निकाली जो गौशाला से अग्रसेन मार्ग गोल बिल्डिंग होते हुए अंबाजी मंदिर और राजमाता मंदिर पर पहुंचे। रविंद्रसिंह, अभिमन्युसिंह, करणसिंह, कानसिंह गहलोत, छान सुथार,

महेंद्र देवड़ा, मीठालाल माली, विनोद तुसावड़ा, मांगीलाल प्रजापत, हिममत माली, ललित राव भगवानसिंह, वागाराम, विक्रमसिंह, विक्रमसिंह एम, दिनेश ओझा, मनीष माली, प्रवीण माली, सतीश माली, प्रीतम, कैलाश, बद्री, हरिसिंह सिसोदिया, लक्ष्मणदत्त, नरपत माली, गौरव एवं समस्त राजमाता नवयुवक मंडल के कार्यकर्ता मौजूद थे।

साइबर सिक्योरिटी में भी सर्वश्रेष्ठ बनेगा राजस्थान : कर्नल राठौड़

जागरूक टाइम्स संवाददाता जयपुर। सूचना प्रौद्योगिकी और संचार मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ की अध्यक्षता में योजना भवन में शनिवार को आयोजित एक उच्चस्तरीय बैठक में साइबर सिक्योरिटी को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए व्यापक रणनीति पर चर्चा की गई। बैठक में तकनीकी उन्नति, मानव संसाधन और प्रक्रियाओं के विकास पर चर्चा की गई। आईटी मंत्री कर्नल राठौड़ ने बैठक में साइबर सिक्योरिटी के लिए समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि साइबर सिक्योरिटी केवल सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर तैयार करने तक सीमित नहीं है। इसके लिए तीन प्रमुख तत्वों-पीपल (लोग), प्रोसेस (प्रक्रियाएं) और टेक्नोलॉजी (प्रौद्योगिकी) का समन्वय जरूरी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि केवल तकनीक पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है। इसके लिए स्वदेशी तकनीक को बढ़ावा देना होगा ताकि विदेशी निर्भरता कम हो।

प्रशिक्षित कार्मिक : साइबर सिक्योरिटी की रीढ़

कर्नल राठौड़ ने बैठक में मानव संसाधन के विकास पर विशेष जोर दिया। साइबर सिक्योरिटी से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों की दक्षता बढ़ाने के लिए संरचित और अंसंरचित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जावेंगे। हर दिन प्रशिक्षण, जागरूकता का विस्तार और ग्रुमिंग होनी चाहिए। इसके लिए पर्याप्त बजट प्रावधान भी

एक नजर

नई शिक्षा नीति पर कार्यशाला आयोजित



भारत ज्ञान परंपरा में आरम्भ से ही समृद्ध रहा है : राज्यपाल

जयपुर। राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने शनिवार को महाराष्ट्र के जालना जिले में जन जागृति संस्थान एवं विद्या भारती द्वारा आयोजित राष्ट्रीय शिक्षा नीति की क्रियान्वयन से संबंधित कार्यशाला में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति को प्रभावी रूप में लागू करने के लिए शिक्षक और शिक्षण संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने नई शिक्षा नीति के अंतर्गत भारतीय ज्ञान परंपरा का उल्लेख करते हुए कहा कि प्राचीन काल से ही विज्ञान, कला, साहित्य और सांस्कृतिक क्षेत्र में भारत अत्यधिक संपन्न रहा है। उन्होंने भारतीय ज्ञान को नष्ट करने के लिए नालंदा विश्वविद्यालय में बख्तियार खिलजी द्वारा लगाई गई आग का उल्लेख करते हुए कहा कि विदेशी आक्रांताओं द्वारा भारतीय ज्ञान को नष्ट करने के निरंतर प्रयास होते रहे हैं। पर विचारों को नष्ट नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति विकसित भारत के साथ भारत को फिर से विश्व गुरु बनाने के लिए महत्वपूर्ण है।

जयपुर-चंडीगढ़ फ्लाइट के दोनों इंजन थोड़ी देर के लिए फेल

जयपुर। जयपुर से चंडीगढ़ जाने वाली इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट 6 ई-7742 शुक्रवार को लैंडिंग से पहले ही अचानक खराब हो गई। चंडीगढ़ पहुंचने से महज कुछ देर पहले ही फ्लाइट के दोनों इंजन ने कुछ समय के लिए काम करना बंद कर दिया था। जानकारी के मुताबिक ओटी इग्नशन सिस्टम ने दोनों इंजन को तुरंत चालू कर दिया और तब जाकर विमान की लैंडिंग कराई गई। डीजीसीए ने इस पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं।

पहलगाम हमले के बाद नहीं टूटा हौसला

जम्मू। मां वैष्णो देवी की यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं का जोश पूरी तरह से हाई है और श्रद्धालु बेखौफ होकर अपनी मां वैष्णो देवी की यात्रा कर रहे हैं। पहलगाम में निंदोष लोगों पर हुए आतंकी हमले के बावजूद भी मां वैष्णो देवी की यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं के हौसले पूरी तरह से बने हुए हैं। शनिवार को भी दिनभर श्रद्धालु अपना पंजीकरण करवा कर परिवार के साथ लगातार भवन की ओर रवाना होते रहे। मां वैष्णो देवी की यात्रा को लेकर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। लगातार मां वैष्णो देवी की यात्रा पर निगाह रखे हुए हैं।

सीसीटीवी कैमरों से हो रही निगरानी

सीसीटीवी कैमरों से भी मां वैष्णो देवी की यात्रा पर लगातार निगाह रखी जा रही है। मां वैष्णो देवी की यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को सभी तरह की सुविधाएं लगातार उपलब्ध हो रही है इनमें हेलीकॉप्टर सेवा, बैटरी काथ सेवा, रोपवे केबल कार सेवा के साथ ही छोड़ा, पिट्टू तथा पालकी आदि की सेवाएं प्रमुख हैं। जिसका लाभ श्रद्धालु मां वैष्णो देवी की यात्रा के दौरान उठा रहे हैं।

एसएमएस स्टेडियम का बदलेगा स्वरूप : खेलमंत्री

50 हजार हो जाएगी सीटिंग कैपेसिटी

जागरूक टाइम्स संवाददाता जयपुर। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम को फिर से डेवलप किया जाएगा। खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि फिलहाल स्टेडियम की सिटिंग कैपेसिटी काफी कम है। ऐसे में योजनाबद्ध तरीके से हर साल स्टेडियम की सीटिंग कैपेसिटी को बढ़ाया जाएगा। वहीं, अगले साल इंडियन प्रीमियर लीग के मुकाबले से पहले तक स्टेडियम की ग्रास और लाइट्स में भी बदलाव किए जाएंगे। राठौड़ ने कहा इस बार हमने सवाई मानसिंह स्टेडियम के साउथ पवेलियन को रिनोवेट किया है। लगभग साढ़े 12 करोड़ रुपए की लागत से यह काम किया गया है। इससे वहां एक हजार लोगों के बैठने की सिटिंग कैपेसिटी भी डेवलप की गई है। जो काफी शानदार है। मौजूदा वक्त में सवाई मानसिंह स्टेडियम की सिटिंग कैपेसिटी सिर्फ 18 हजार है। जिसे इंडियन प्रीमियर लीग के मुकाबले के दौरान टेपेरी बेसिस पर पांच से सात हजार तक बढ़ाकर 25 हजार तक ले जाया जाता है। अब हमारा इरादा पूरे स्टेडियम की सिटिंग कैपेसिटी को बढ़ाने का है। इसके लिए हम हर साल स्टेडियम के अलग-अलग ब्लॉक की सिटिंग कैपेसिटी को बढ़ाने का काम करेंगे।

प्रदीप मिश्रा ने पहले कथा रोकी, फिर बोले-जारी रहेगी

जयपुर में दिन में कहा था हमें समर्थन नहीं मिला, शाम को प्रशासन से बनी सहमति

जयपुर। जयपुर के विद्याभर नगर स्टेडियम में चल रही प्रदीप मिश्रा की कथा तीसरे दिन शनिवार को एक बार रोक दी गई थी। इसके बाद कथावाचक प्रदीप मिश्रा, कलेक्टर जितेंद्र सोनी, पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ के बीच 1 घंटे तक वार्ता चली। वार्ता के बाद प्रदीप मिश्रा ने वीडियो जारी कर बताया कि प्रशासन से सहमति बन गई है, कथा रविवार से फिर जारी रहेगी। वहीं रविवार से कथा के समय में भी बदलाव किया गया है। अब कथा दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक होगी। इससे पहले दिन में प्रदीप मिश्रा ने मंच से कथा रोकने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था- इससे बड़ी कथा हमने यूपी में की थी, वहां का प्रशासन पूरी तरह सहयोगी था, लेकिन जयपुर में हमें ऐसा समर्थन नहीं मिला। कथा 1 मई को शुरू हुई थी और 7 मई तक चलनी है। आयोजन समिति के सचिव अनिल संत ने बताया था कि पुलिस ने आयोजन में सहयोग करने की बजाय लगातार अड़चनें खड़ी कीं। हमारी ओर से पूरी व्यवस्थाएं थीं, लेकिन पुलिस ने जगह-जगह बैरिकेडिंग कर रास्ते बंद कर दिए थे। यहां तक कि पुलिस ने अपने लोगों को कथास्थल पर आगे की पंक्तियों में बैठा दिया।

पहलगाम दुखान्तिका से त्यथित पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने नहीं मनाया जन्मदिन सभी दिवंगत आत्माओं के प्रति मेरी विनम्र श्रद्धांजलि

जागरूक टाइम्स संवाददाता जयपुर। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने इस बार अपना जन्मदिन नहीं मनाए का फैसला किया है। हर साल पूर्व सीएम का जन्मदिन 3 मई को धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन इस बार 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में हुए कायराणा आतंकी हमले से व्याथित होकर अशोक गहलोत ने इसे नहीं मनाए का फैसला किया है। उन्होंने इसकी जानकारी अपने सोशल मीडिया

अकाउंट पर शेयर की है। आतंकी हमले से दुखी है पूर्व सीएम: सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए उन्होंने कहा कि वह इस आतंकी हमले से बेहद दुखी हैं और हमले में मारे गए पर्यटक की मौत से बेहद व्यथित हैं, जिसके चलते मैंने इस बार अपना जन्मदिन नहीं मनाए का फैसला किया है। एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा कि पहलगाम में हुए कायराणा आतंकी हमले ने हम सभी को बेहद दुखी कर दिया है। जो लोग परिवार के साथ खुशी के पल बिताते के मकसद से गए थे, उनके लिए यह यात्रा जिंदगी भर का गम दे गई। आज भी उन परिवारों की मन स्थिति के बारे में सोचकर मन कांप उठता है, जिनके परिजनों को

उनके सामने ही मार दिया गया। 3 मई को जन्मदिन न मनाए का किया फैसला: उन्होंने आगे कहा कि ऐसे समय में मैंने इस वर्ष 3 मई को अपना जन्मदिन न मनाए का निर्णय किया है। उन्होंने अपने सभी प्रशंसकों और कार्यकर्ताओं से अपील की है कि यदि उन्होंने इस दिन कोई कार्यक्रम प्रस्तावित किया है तो मानवीय दृष्टिकोण रखते हुए उसे रक्तदान शिविर और सेवा कार्य तक ही सीमित रखें। इसके अलावा किसी भी तरह का जश्न न मनाएं यह उन सभी दिवंगत आत्माओं के प्रति मेरी विनम्र श्रद्धांजलि है और उनके परिवारों के साथ एकजुटता का प्रतीक है। दुख की इस घड़ी में पूरा देश पीड़ित परिवारों के साथ है।

पाकिस्तान के ड्रोन और हेलिकाप्टर पलक झपकते ही तबाह होंगे आर्मी खरीद रही नेक्स्ट जेनरेशन एयर डिफेंस सिस्टम्स

नई दिल्ली। पाकिस्तान के साथ जारी तनाव के बीच भारतीय सेना एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। आर्मी ने नेक्स्ट जेनरेशन एयर डिफेंस सिस्टम के लिए टेंडर जारी कर दिया है। यह एक बेहद खास एयर डिफेंस सिस्टम होगा, जिसकी मदद भारतीय सेना दुश्मन के ड्रोन-बेलिकाप्टर और कुछ हद तक विमानों को गिराने के लिए करेगी। इस एयर डिफेंस सिस्टम को खासियत यह है कि इसे कंधे पर रखकर दुश्मन के खिलाफ दागा जा सकता है। यह एक शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम होगा। रक्षा अधिकारियों के मुताबिक सेना ने ‘मेक इन इंडिया’ के तहत 48 लॉन्चर, 8 5 मिसाइल और दूसरे जरूरी उपकरणों की जरूरत बताई है। इस खरीद से भारतीय सेना का एयर डिफेंस सिस्टम बेहद मजबूत हो जाएगा। इसे खासतौर पर कम ऊंचाई और कम दूरी से होने वाले हमलों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा।

रोक लगाने के लिए एफटीपी में जोड़ा गया प्रावधान

डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड की तरफ से 2 मई को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया। इसमें कहा गया है कि विदेश व्यापार नीति 2023 में एक प्रावधान जोड़ा गया है। इसके मुताबिक पाकिस्तान से आने वाले या पाकिस्तान को निर्यात किए जाने वाले सभी सामानों के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आयात पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाती है। यह रोक अगले आदेश तक जारी रहेगी। अप्रैल से जनवरी 2024-25 में भारत से पाकिस्तान को 447.6 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात किया गया था। वहीं, पाकिस्तान से भारत को सिर्फ 0.42 मिलियन अमेरिकी डॉलर का आयात हुआ।

85वीं स्क्वॉड मिसाइल और 48 लॉन्चर-नाइट विजन खरीदेगा भारत

नई दिल्ली। पाकिस्तान के साथ युद्ध जैसे हालात बनने के बाद भारतीय सेना ने इमरजेंसी प्रोक्वोरमेंट के तहत 85 वी स्क्वॉड मिसाइल खरीदने का फैसला किया है। इसके साथ 48 लॉन्चर और नाइट विजन साइट भी खरीदे जाएंगे। वी स्क्वॉड मिसाइल बिना किसी धमके के अपने लक्ष्य को भेदने में सक्षम रहती है। आम लोगों के बीच छिपे आतंकियों को मारने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ऐसे में भारत भी पाकिस्तान में छिपे आतंकियों को मारने के लिए इस मिसाइल का उपयोग कर सकता है। इस मिसाइल को आमतौर पर ड्रोन के जरिए लॉन्च किया जाता है। इससे लंबी दूरी के लक्ष्य को सटीक निशाने के साथ भेदा जा सकता है।



पाक के खिलाफ भारत ने लिए क्या-क्या एक्शन

गौरतलब है कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान के खिलाफ एक के बाद एक कड़े कदम उठा रहा है। हाल ही में भारत ने राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान के साथ होने वाले सभी तरह के व्यापार को रोक दिया है। बता दें साल 2019 में हुए पुलवामा हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान से आयात किए जाने वाले सामान पर 200 फीसदी शुल्क लगा दिया था। इसका तोड़ निकालते हुए पाकिस्तान ने किसी अन्य देशों के रास्ते सामान भेजना शुरू कर दिया था, लेकिन अब भारत सरकार ने ऐसे देशों से भी पाकिस्तानी सामान के आने पर रोक लगा दी है।

तीन बच्चों का बाप हिंदू लड़की के साथ फरार धनबाद में हिंदू संगठनों में आक्रोश, मां ने कराई प्राथमिकी दर्ज

धनबाद। पुटकी की रहने वाला तीन बच्चों का पिता आरिफ हुसैन बरामुड़ी की एक युवती को लेकर फरार हो गया है। इस क्रम में वह लड़की से शादी करने के लिए निबंधन कार्यालय भी पहुंचा था, लेकिन लड़की के स्वजनों के वहां पहुंच जाने के कारण वर यहां से भी भाग गया। मामले को लेकर लड़की की मां ने धनबाद थाना में आवेदन देकर प्राथमिकी कराई है। मां ने बताया है कि शुक्रवार को आरोपित आरिफ हुसैन उर्फ आरिफ खान उनके पुत्री को लेकर फरार हो गया। पुत्री के पास 50 हजार रुपए नगद और करीब दो लाख रुपए के

भारत से आ रहे विमान को श्रीलंकाई सुरक्षाबलों घेरा

कोलंबो। श्रीलंका ने चेन्नई से आ रहे एक विमान की आकस्मिक जांच की है। यह जांच भारत से मिले अलर्ट के बाद की गई है। श्रीलंकाई एयरलाइंस का यह विमान शनिवार (3 मई) को भेदने में सक्षम रहती है। आम लोगों के बीच छिपे आतंकियों को मारने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ऐसे में भारत भी पाकिस्तान में छिपे आतंकियों को मारने के लिए इस मिसाइल का उपयोग कर सकता है। इस मिसाइल को आमतौर पर ड्रोन के जरिए लॉन्च किया जाता है। इससे लंबी दूरी के लक्ष्य को सटीक निशाने के साथ भेदा जा सकता है।

नाकाम हो गए दहशत फैलाने वाले पर्यटकों की बढ़ती संख्या इस बात का सबूत

कश्मीर। नेशनल कांफ्रेंस के अध्यक्ष और जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला शनिवार (3 मई) को पहलगाम पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि आतंकी घटना के बाद पर्यटकों का यहां आना दिल खुश कर देने वाली बात है, जो लोग इनके अंदर दहशत फैलाना चाहते थे वो नाकाम हो गए। यह सबसे बड़ा संदेश यह है कि पर्यटक डरे हुए नहीं हैं। जो लोग डर फैलाना चाहते थे वो हार गए हैं। आतंकवादों हार गए हैं। आज यह साबित हो गया है कि हम डरने वाले नहीं हैं। जो लोग इस तरह की कायराणा हरकतों से हमारी

आत्मा को तोड़ना चाहते हैं, वे कभी कामयाब नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि आज कश्मीर में पर्यटकों की बढ़ती संख्या खुद इस बात का सबूत है।

सबसे बड़ी सबूत है। उन्होंने ये भी कहा कि जम्मू-कश्मीर की जमीन अभी भी शान्ति, सौंदर्य और भाईचारे की मिसाल है।